



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10—नवम्बर 16, 2007 (कार्तिक 19, 1929)

No. 45]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10—NOVEMBER 16, 2007 (KARTIKA 19, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2007

सं. 542, दिनांक 22 अक्टूबर 2007—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल : 87) के अधिकारी श्री सत्यजीत राजन का केरल सरकार से स्थानांतरण होने पर, उन्हें 18 सितम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से 17 सितम्बर 2012 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को 1 जुलाई 2001 (एस एल 2001) से अगले आदेश जारी होने तक नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं:—

नाम एवं पदनाम, अवर सचिव के रूप में आरंभिक नियुक्ति की तारीख (स्व स्थाने/तदर्थ आधार पर)

श्री एस. के. झा, 19 जुलाई 2001

2. उपर्युक्त चयन सूची में अधिकारी की वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिसमें उनके नाम को रखा गया है। उपर्युक्त चयन सूची में शामिल अधिकारी की अवर सचिव ग्रेड में नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट

याचिका सं. 3269/2003, सी डब्ल्यू पी सं. 3912/2003 तथा सी डब्ल्यू पी सं. 13352/2005 के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

उपर्युक्त नियुक्ति को अनुमोदित सेवा तथा अवर सचिव के रूप में वेतन निर्धारण के प्रयोजन से सैद्धांतिक आधार पर 1 जुलाई 2001 से प्रभावी माना गया है। तथापि, वास्तविक लाभ उसी तारीख से उपलब्ध होंगे जिस तारीख को अधिकारी को अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था/है।

3. उपर्युक्त अधिकारी मूल नियम 22 के प्रावधान के अंतर्गत वेतन निर्धारण के विकल्प का लाभ लेने के हकदार होंगे।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री के प्रथम निजी सचिव श्री टी. प्रताप को 6 अगस्त, 2007 (पूर्वाह्न) से रक्षा मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09 अगस्त, 2007 के का.ज्ञा. संख्या 5 अगस्त 2006 सी एस-II के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप सूचना एवं प्रसारण

मंत्रालय के आशुलिपिक ग्रेड "ग" श्री चंद्र कुमार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 05 सितम्बर, 2007 के अपराह्न से 31 दिसम्बर, 2007 तक या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं:--

(i) तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09 अगस्त, 2007 के का.ज्ञा.संख्या 05 अगस्त 2006 सी एस-II के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड "ग" श्री अशोक कुमार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 12 सितम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से 31 दिसम्बर, 2007 तक या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं:--

(i) तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

एस. के. देव
अवर सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 543, दिनांक 23 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) के निम्नलिखित सहायक वित्तीय सलाहकारों को वर्ष 2001, 2002 की चयन सूची के लिए नियमित आधार पर दिनांक 20 अगस्त, 2007 से संबंधित वर्ष में अगले आदेशों तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के अवर सचिव ग्रेड-1 में नियुक्त करते हैं:--

चयन सूची 2001

1. श्री टी. जोसेफ
2. श्री जे. पी गुप्ता
3. श्री आर. डी. गुप्ता

चयन सूची 2002

1. श्री राकेश भटनागर
2. श्रीमती मेरी बाबारला
3. श्री बी. एल. मीना

आर. एस. परोच
उप वित्तीय सलाहकार

सेना शाखा

राष्ट्रीय कैंडेट कोर महानिदेशालय

सं. 544, दिनांक 23 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति महोदय श्री प्रभाकर कुमार सहायक को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारी/ आशुलिपिक ग्रुप (बी)/ ग्रेड-1 सीमित विभागीय परीक्षा-2003 के सफल प्रतिभागियों की अनुपूरक सूची अधिसूचित किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 11 दिसम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी समूह (ख) राजपत्रित के पद पर नियुक्त करते हैं।

शंकर सिंह
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशा.)

सं. 545, दिनांक 24 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी की सहर्ष नियुक्ति करते हैं:--

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन
ले. बनाया जाता है

हिम्मत सिंह राठौर (टीए-42664) 12 अप्रैल 2006 (एफ एन), इन्फैन्ट्री
राजौली विजया कुमार (टीए-42665) 17 अप्रैल 2006 (एफ एन),
इन्फैन्ट्री

दालवी केदार वसंत (टीए-42666) 25 अप्रैल 2006 (एफ एन),
इन्फैन्ट्री

विशाल स्वरूप (टीए-42667) 18 अप्रैल 2006 (एफ एन), इन्फैन्ट्री

करण सिंह राजपूत (टीए-42669) 23 अक्टूबर 2006 (एफ एन),
इन्फैन्ट्री

अश्विनी भूरिया (टीए-42670) 04 नवम्बर 2006 (एफ एन), इन्फैन्ट्री

राज कुमार शर्मा (टीए-42671) 21 अक्टूबर 2006 (एफ एन), इन्फैन्ट्री

कंवर प्रीत सिंह सन्धु (टीए-42672) 11 दिसम्बर 2006 (एफ एन),
इन्फैन्ट्री

रामचंद्रा सिंह नगरकोटी (टीए-42675) 27 नवम्बर 2006 (एफ एन),
इन्फैन्ट्री

विक्रम सिंह (टीए-42676) 14 नवम्बर 2006 (एफ एन), इन्फैन्ट्री
गौरव चौहान (टीए-42677) 31 अक्टूबर 2006 (ए एन), इन्फैन्ट्री
चव्हाण पृथ्वीराज सर्जेशव (टीए-42678) 01 फरवरी 2007 (एफ एन),
इन्फैन्ट्री

मनमीत सिंह (टीए-42679) 06 फरवरी 2007 (एफ एन), इन्फैन्ट्री
एन. कालियप्पन
अवर सचिव

सं. 546, दिनांक 25 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष
नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना
(विशेष आयोग)

निम्नलिखित बारह एन सी ओज को सेना अनुदेश 5/97 के अन्तर्गत
संलिखित सेना सेवा में 9 दिसम्बर 2006 से लेफ्टिनेन्ट के पद पर विशेष
आयोग प्रदान किया जाता है:--

सैन्य सं., चैतुक आर्म्स/सर्विस, नाम, एस सी नम्बर, आर्बटित सर्विस/आर्म्स
9512738ए, आईसी, राजेश चन्द, एससी-00510एफ, एएडी
13754037एफ, इन्फैन्ट्री, रोशन सिंह, एससी-00511 के, आर्टी
3991686डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री, अरविन्द छत्रिया, एससी-00512एम, आर्टी
15371834एफ, सिग्नल्स, डी राजेन्द्र प्रसाद, एससी-00513पी, आर्टी
14615395एक्स, ईएमई, यू अजिथ कुमार, एससी-00514एक्स, एएडी
15115850एच, आर्टी, कैलाश चन्द्र आर्य, एससी-00515ए, आर्टी
9095901एच, इन्फैन्ट्री, मनिन्दर कुमार गोस्वामी, एससी-00516एच,
आर्टी
15396733वाई, सिग्नल्स, औंकार सिंह, एससी-00517एल, आर्टी
6934099पी, एओसी, कौशल किशोर त्रिपाठी, एससी-00518एन, आर्टी
15311590पी, इंजीनियर्स (एमईजी), रवि एस, एससी-00519डब्ल्यू,
आर्टी
14918032एक्स, मैक इन्फैन्ट्री, जी अलागूराजू, एससी-00520एल,
आर्टी
14620345डब्ल्यू, ईएमई, चन्द्र शेखर आर, एससी-00521एन, एएडी
चन्द्र शेखर
ले. कर्नल
सह सेना सचिव-8बी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 547, दिनांक 25 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
नियुक्ति करते हैं:--

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से
रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी

वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 8,000-275-13,500
पर:--

नाम, स्थापना, दिनांक

श्री गुरुदीप सिंह, ए डी आर डी ई, आगरा, 14 अप्रैल 2005
श्री अमीत कुमार, ए डी आर डी ई, आगरा, 22 सितम्बर 2005
श्री अजीत कुमार, ए डी आर डी ई, आगरा, 22 सितम्बर 2005
श्री राकेश रविदास, ए डी आर डी ई, पूणे, 06 सितम्बर 2004
श्री एस प्रेम कुमार, ए डी आर डी ई, पूणे, 22 जून 2005
मिस. थरिगोंडा विजय लक्ष्मी, ए एस एल, हैदराबाद, 18 अप्रैल 2002
श्री श्रीकांत डी घोसले, ए एस एल, हैदराबाद, 28 अगस्त 2003
श्री अश्विन चंदर ओ आर, ए एस एल, हैदराबाद, 12 अप्रैल 2004
श्री अनुराग कुमार तिवारी, सीसीई (आर एंड डी), नई दिल्ली, 06 मार्च
2003
श्री नीरज कुमार पटेल, डील, देहरादून, 12 अप्रैल 2004
श्री शैलेन्द्र कुमार गौतम, डील, देहरादून, 14 अप्रैल 2005
श्री जसवीन्द्र सिंह, डील, देहरादून, 14 अप्रैल 2005
श्री दिनेश द्विवेदी, डील, देहरादून, 14 अप्रैल 2005
श्री अमीत अग्रवाल, डील, देहरादून, 14 अप्रैल 2005
मिस पुनम भास्कर, डील, देहरादून, 22 सितम्बर 2005
श्री मानवेदर शर्मा, डी एल, जोधपुर, 14 अप्रैल 2005
मिस. संध्या सोंगरा, डी एल, जोधपुर, 10 अगस्त 2005
श्री गौतम कुमार, डी एल आर एल, हैदराबाद, 22 सितम्बर 2005
श्री उमा महेश्वरा राव मीसला, डी एल आर एल, हैदराबाद, 14 अप्रैल
2005
श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा, डी आर डी ई, ग्वालियर, 23 मार्च 2005
श्री प्रवीण कुमार चौधरी, डी आर डी एल, हैदराबाद, 06 मार्च 2003
श्री अशोक नगलोड, डी आर एल, तेजपुर, 22 अगस्त 2005
श्री सुनिल सी जैसवाल, हेमरल, पूणे, 06 मार्च 2003
श्री सीताकान्त बेहरा, हेमरल, पूणे, 28 अगस्त 2003
मिस. मेशराम दर्शना एन, हेमरल, पूणे, 12 अप्रैल 2004
श्री नरेश कुमार, हेमरल, पूणे, 14 अप्रैल 2005
श्री मिर्णाल घोष, हेमरल, पूणे, 16 जून 2005
श्री सुरीन्द्र कुमार, हेमरल, पूणे, 13 जून 2005
श्री अभीजित डे, हेमरल, पूणे, 14 जून 2005

श्री श्रवण कुमार तिवारी, आई एन एस, शिवाजी, 26 मई 2005

श्री जी प्रताप कुमार, आई एन एस, शिवाजी, 22 अगस्त 2005

श्री विशाल भूषण, आई आर डी ई, देहरादून, 11 नवम्बर 2005

श्री संजीत कुमार साहा, आई टी आर, बालासोर, 14 अप्रैल 2005

श्री राजेश कुमार मीणा, लासटेक, दिल्ली, 14 अप्रैल 2005

श्री पंकज राज, एम एस सी, पूणे, 14 अप्रैल 2005

श्री अनील कुमार के, एन पी ओ एल, कोच्ची, 11 मार्च 2005

श्री सिजोमोन पी जे, एन पी ओ एल, कोच्ची, 14 अप्रैल 2005

श्री भरतवाज श्रीनिवासन वी, एन एस टी एल, विशाखापटनम, 05 जनवरी 2004

श्री सुनील चौहान, आर एंड डी ई (ई), पूणे, 22 अगस्त 2005

श्री अविनाश श्रीकान्तराव हूड, आर एंड डी ई (ई), पूणे, 06 मार्च 2005

श्री बिमल गौतम, आर एंड डी ई (ई), पूणे, 14 अप्रैल 2005

श्री विशाल बीर सिंह, आर एंड डी ई (ई), पूणे, 14 अप्रैल 2005

श्री इनामदार अमोल प्रकाशराव, आर एंड डी ई (ई), पूणे, 14 अप्रैल 2005

डी आर डी एस नियम 1979 के उप नियम 8-1 (क) के निबन्धनों के अनुसार हुई विभागीय परीक्षा 2003 में उत्तीर्ण होने पर श्रीमती के यवना राणी, एस टी ए 'सी', सी वी आर डी ई, चैन्ने को दिनांक 13 मई 2005 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में एल आर डी ई, बैंगलूर में दो वर्ष की परावधि पर वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 पर।

पी. सारथ
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

वायु शाखा

सं. 548, दिनांक 25 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

भूतपूर्व फ्लाईट कैंडेडेट्स से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर पुखराज चतुर्वेदी (29265) 15 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों (फ्लाईट कैंडेडेट्स) को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत स्थायी कमीशन तथा विंग्स (परखाधीन) प्रदान करते हैं। ये ऑफिसर

स्थायी कमीशन तथा विंग्स (परखाधीन) प्रदान करने की तारीख यानि 18 जून 2005 से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं:--

उड़ान (पायलट) शाखा

भूतपूर्व फ्लाईट कैंडेडेट्स से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

फ्लाईंग ऑफिसर अभिषेक रैना (28452), जयदीप सिंह आर बिंद्रा (28456) और मुद्दा राम कमल (28482) 18 जून 2005 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में वायु सेना निर्देश 01/91 शुद्धि पत्र 04/02 द्वारा संशोधित उपबंधों के तहत शाखा कमीशन प्रदान करते हैं।

भूतपूर्व वायुसैनिक से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

(सिर्फ वेतन के लिए 13 जनवरी 2004 से प्रभावी
दो वर्ष की पूर्व दिनांक के साथ)

ए इ (एम) शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर द्विवेदी राजेश कुमार (28843) और तोप्पिल कुट्टाप्यन राजु 13 जनवरी 2006 से प्रभावी।

ए इ एल शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर अजमेर सिंह (28845), विरेंदर कुमार तिवारी (28846), लाल शर्मा (28847), रमेश कुमार तिवारी (28848), रावत वृजेंद्र सिंह (28849) और सिंह संजीव कुमार (28850) 13 जनवरी 2006 से प्रभावी।

एन. विजय कुमार
विंग कमांडर
जे. डी. पी. ओ. 3 (डी)

सं. 549, दिनांक 22 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में संविदा क्रय अधिकारी श्री वाई. एम. दीक्षित के कार्यकाल को 11 अक्टूबर 2007 से 10 अक्टूबर 2008 तक एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ाते हैं।

एस. के. देव
अवर सचिव

सं. 550, दिनांक 22 अक्टूबर 2007--आई आर ए एस (91) की अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में निदेशक श्रीमती नमिता मेहरोत्रा का योजना आयोग में निदेशक के पद पर पार्श्विक स्थानांतरण के लिए अनुमोदन हो जाने के फलस्वरूप 14 सितम्बर, 2007 (अपराह्न) से उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 15 नवम्बर, 2011 तक के लिए उनकी सेवाएं योजना आयोग को सौंपी जाती हैं। केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में उनका कार्यकाल 16 नवम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से शुरू हुआ था।

एस. के. देव
अवर सचिव

सं. 551, दिनांक 23 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।	सेना विभाग	नायब सूबेदार सुखपाल सिंह (जेसी-499372वाई), 20 जून 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007)
	नियमित सेना	नायब सूबेदार नछतर सिंह (जेसी-499401एच), 11 जुलाई 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 मई 2007)
	इन्फैन्ट्री	नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-499426पी), 11 जुलाई 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मई 2007)
	सिक्ख रेजिमेन्ट	नायब सूबेदार बेअन्त सिंह (जेसी-499408एम), 05 जुलाई 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007)
	सूबेदार मेजर के रैंक में	नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-498270डब्ल्यू), 05 अक्टूबर 2006 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006)
		नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-499439एम), 05 जुलाई 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007)
		नायब सूबेदार जसवीर सिंह (जेसी-498528वाई), 10 जुलाई 2007 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007)
		नायब सूबेदार जसबीर सिंह (जेसी-499412पी), 17 जुलाई 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जून 2007)
		नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-498478वाई), 01 जुलाई 2007 सूबेदार के रैंक में
		नायब सूबेदार पलविन्दर सिंह (जेसी-499327एम), 18 मई 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007)
		नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-499246एम), 14 जून 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006)
		नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जेसी-499209वाई), 13 जुलाई 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007)
		नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-499363एक्स), 15 मई 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007)
		नायब सूबेदार हुकम सिंह (जेसी-499357के), 04 मई 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007)
		नायब सूबेदार गवा सिंह (जेसी-499400ए), 20 अप्रैल 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007)
	सूबेदार (लिपिक) के रैंक में	नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जेसी-499406एफ), 20 अप्रैल 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007)
		नायब सूबेदार लिपिक राजेन्द्र सिंह (जेसी-499258एफ), 01 मई 2007
		नायब सूबेदार लिपिक देवी सिंह (जेसी-499287डब्ल्यू), 21 जुलाई 2007 (सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007)
		नायब सूबेदार हरजुरा सिंह (जेसी-499322एन), 04 मई 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007)
	सूबेदार मेजर के रैंक में	नायब सूबेदार जगरूप सिंह (जेसी-499394एक्स), 20 जून 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007)
		नायब सूबेदार गुरमेल सिंह (जेसी-499318एल), 17 मई 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007)
	सूबेदार के रैंक में	नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-499346एक्स), 08 अप्रैल 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007)
		नायब सूबेदार कुलविन्द्र सिंह (जेसी-499347ए), 16 जून 2007 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अप्रैल 2007)

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-499403एन), 04 मई 2007
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक ब्रिजेन्द्र सिंह तोमर (जेसी-499230एफ),
01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार लिपिक सत्यवीर (जेसी-499254एल), 07 मई 2007
(सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007)

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार गुरमेल सिंह (जेसी-509012वाई), 01 जून 2006
नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-509071एल), 16 जुलाई 2006
नायब सूबेदार बचितर सिंह (जेसी-508865के), 11 अगस्त 2006
नायब सूबेदार बिक्रमजित सिंह (जेसी-509154डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2006
नायब सूबेदार राजपाल सिंह (जेसी-509155वाई), 02 नवम्बर 2006
नायब सूबेदार इन्द्रजीत सिंह (जेसी-509085एल), 07 दिसम्बर 2006
नायब सूबेदार बलौर सिंह (जेसी-509074वाई), 26 दिसम्बर 2006
नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जेसी-509076के), 26 दिसम्बर 2006
नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-509009वाई), 01 फरवरी 2007
नायब सूबेदार पूर्ण सिंह (जेसी-509175एम), 01 फरवरी 2007
नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-508934पी), 01 फरवरी 2007
नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-508876डब्ल्यू), 06 फरवरी 2007
नायब सूबेदार हरमेल सिंह (जेसी-508877वाई), 06 फरवरी 2007
नायब सूबेदार भजन सिंह (जेसी-509011डब्ल्यू), 01 मार्च 2007
नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-509100पी), 01 मार्च 2007
नायब सूबेदार सूरत सिंह (जेसी-509099एल), 01 मार्च 2007
नायब सूबेदार जगरूप सिंह (जेसी-509174के), 01 मार्च 2007
नायब सूबेदार सरूप सिंह (जेसी-509197एल), 01 मार्च 2007
नायब सूबेदार आत्मा सिंह (जेसी-509222वाई), 01 मार्च 2007
नायब सूबेदार सोम सिंह (जेसी-508922ए), 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार पाल सिंह (जेसी-509223एफ), 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-509201एच), 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-509211एम), 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-508970ए), 01 मई 2007
नायब सूबेदार बलजिन्द्र सिंह (जेसी-508899एक्स), 06 मई 2007

दि राजपूत रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रूप में

सूबेदार मेजर अमर सिंह चौहान (जेसी-478637के), 06 मई 2007

सूबेदार मेजर ओम प्रकाश सिंह (जेसी-478558पी), 05 जून 2007

सूबेदार के रूप में

सूबेदार शब्बीर अहम्मद (जेसी-479253एफ), 01 जनवरी 2007

सूबेदार मन मोहन सिंह (जेसी-479465एम), 01 जनवरी 2007

सूबेदार मधु सूदन मण्डल (जेसी-479493वाई), 01 फरवरी 2007

सूबेदार अमानुल्लाह खान (जेसी-479494एफ), 01 फरवरी 2007

सूबेदार राय सिंह (जेसी-479586एन), 01 मार्च 2007

सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-479401एफ), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार मन बहादुर सिंह (जेसी-479408एल), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार राजेन्द्र सिंह राजपूत (जेसी-479421पी), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार राज नारायण सिंह (जेसी-479423ए), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार प्रवेश चन्द्र दास (जेसी-479507एन), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार धर्म पाल (जेसी-479561एफ), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार सुख बीर सिंह (जेसी-479571एल), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार हंसी राम (जेसी-479424एच), 01 मई 2007

सूबेदार बीर सिंह (जेसी-479566ए), 01 मई 2007

सूबेदार राम मेहर (जेसी-479489डब्ल्यू), 11 मई 2007

पैराशूट रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

नायब सूबेदार निमगिरे अरून मारुति (जेसी-412109ए), 25 अप्रैल 2007

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह (जेसी-412698एफ), 01 जून 2007

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-412692ए), 01 जून 2007

नायब सूबेदार दिगर सिंह (जेसी-412549एन), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-412713एल), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जेसी-412803एम), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार दीपक कुमार (जेसी-412873एल), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-412875डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार रन सिंह भमबू (जेसी-412810एच), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद जाट (जेसी-412815एफ), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार सतवीर सिंह (जेसी-412816के), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार चिन्तामाणी चपगाई (जेसी-412762एन), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार इन्द्रा पाल विद्यार्थी (जेसी-412736एन), 01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार जय बहादुर (जेसी-412737पी), 01 अगस्त 2007

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) धरम सिंह (जेसी-412859वाई), 01 जून 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) सत्यपाल सिंह फोग्ट (जेसी-412854ए), 01 जून 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) पूरन सिंह गौलाकोटी (जेसी-412855एन), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) अवतार सिंह (जेसी-412903एक्स), 01 अगस्त 2007

सूबेदार (म्युजिशियन) के रैंक में

नायब सूबेदार (म्युजिशियन) राम सिंह कटरोलिया (जेसी-412539ए), 01 सितम्बर 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-412566एन), 01 अप्रैल 2002

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-412680एल), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार श्री किशन (जेसी-412741एक्स), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार बुध सिंह (जेसी-412792एल), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार मगन सिंह (जेसी-412704के), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार मुकेश कुमार (जेसी-412772एक्स), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार बनवारी लाल (जेसी-412790ए), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार राम रतन (जेसी-412791एच), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार प्रदीपन पी सी (जेसी-412678एन), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार गावटे पोपट बाजी राव (जेसी-412697वाई), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार युद्धवीर सिंह यादव, सेना मेडल (जेसी-412716वाई), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार जय राम सिंह (जेसी-412743एच), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार ललित नारायण सिंह (जेसी-412749के), 29 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार जानेंद्र कुमार (जेसी-412771पी), 01 मई 2007

नायब सूबेदार हरीश चन्द (जेसी-412767एम), 01 मई 2007

नायब सूबेदार सोबन सिंह रावत (जेसी-412533एच), 01 मई 2007

नायब सूबेदार रूमेल सिंह (जेसी-412679डब्ल्यू), 01 मई 2007

नायब सूबेदार रमेश कुमार ठाकुर (जेसी-412675ए), 01 मई 2007

नायब सूबेदार जसमेर सिंह (जेसी-412799पी), 09 मई 2007

नायब सूबेदार विनोद सिंह (जेसी-412800वाई), 09 मई 2007

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) पवन कुमार सैनी (जेसी-412811एल), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) कैलाश चंद्रा (जेसी-412808एल), 01 अप्रैल 2007

जम्मू और कश्मीर साईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार मोहम्मद आमिन मीर (जेसी-592411ए), 02 मई 2007

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 नवम्बर 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-592197एफ), 01 मई 2007

सूबेदार बिशन लाल (जेसी-592628एच), 02 जून 2007

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 जून 2007 से वरिष्ठता दी जाती है)

मद्रास रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार योगलिनाम (जेसी-439252डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार गनेसन एस (जेसी-439289एक्स), 01 मई 2007

नायब सूबेदार सदानन्दन पी (जेसी-439291पी), 11 मई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पी मुरलीधरन (जेसी-439487एच), 01 मई 2007

नायब सूबेदार जीथु कुमार जी (जेसी-439479के), 19 मई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शम्शुदीन एम (जेसी-439494वाई), 17 मई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हुसैन कुन्जु जे (जेसी-439495एफ), 08 मई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजन एम (जेसी-438271पी), 01 मई 2007

सूबेदार टी वासुदेवन (जेसी-438193एच), 02 मई 2007*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)

सूबेदार शेक खादर वाली (जेसी-438319एक्स), 20 मई 2007

सूबेदार कोरिकना लक्ष्म नायडू (जेसी-438405एच), 01 जून 2007

सूबेदार बालकृष्ण एन पी (जेसी-438309एन), 01 जून 2007

सूबेदार कृष्ण कुमार पी वी (जेसी-438458एफ), 01 जून 2007

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) सथियन के के (जेसी-438487डब्ल्यू), 01 मई 2007

सूबेदार मेजर (संगीतकार) के रैंक में

सूबेदार (संगीतकार) पक्कीरीस्वामी पी (जेसी-438910एल), 01 फरवरी 2007

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शेक सुभान (जेसी-439203एन), 05 जुलाई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रबी ए (जेसी-439248एन), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार एम रामा मोहन राव (जेसी-439346एन), 07 जुलाई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मिनिने रोड्रिग्स (जेसी-439421एन), 12 अप्रैल 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अशोक कुमार एस आर (जेसी-439502एम), 03 जून 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार के जे सेबास्टेन जोसफ (जेसी-439451के), 02 जुलाई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नन्धन सी (जेसी-439468एक्स), 23 जुलाई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जायेगी)

डोगरा रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार किशन लाल वर्मा (जेसी-519329एफ), 05 मई 2007+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से)

सूबेदार मिलाप चन्द बरवाल (जेसी-519425डब्ल्यू), 01 जून 2007

सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-519228एल), 02 जुलाई 2007+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से)

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) राजमल ठाकुर (जेसी-518938वाई), 01 मई 2007

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार देश राज (जेसी-519983एक्स), 11 मार्च 2007+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से)

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-519985एच), 19 मई 2007+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से)

नायब सूबेदार रशपाल सिंह (जेसी-520049ए), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-520053एच), 29 अप्रैल 2007+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 फरवरी 2007 से)

नायब सूबेदार परशोत्तम लाल शर्मा (जेसी-519967ए), 12 अप्रैल 2007+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से)

नायब सूबेदार बखतावर सिंह (जेसी-519970ए), 24 जून 2007+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से)

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द बैन्स (जेसी-519995एम), 06 जुलाई 2007+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से)

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-520004ए), 25 मई 2007+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मार्च 2007 से)

नायब सूबेदार नरिन्दर सिंह (जेसी-519841ए), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-519991डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-520021ए), 14 जून 2007+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह राणा (जेसी-520082एक्स), 19 जुलाई 2007+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)

नायब सूबेदार अमीन चन्द शर्मा (जेसी-519994के), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार मदन मोहन (जेसी-520018ए), 05 जून 2007+

+(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)

नायब सूबेदार पहाद सिंह (जेसी-520005एच), 01 अप्रैल 2007	नायब सूबेदार एम डी बदरुद्दीन (जेसी-579938पी), जैक राईफल्स, 01 नवम्बर 2006
नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-520023एल), 01 अप्रैल 2007	नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-580062एन), जैक राईफल्स, 01 नवम्बर 2006
नायब सूबेदार सुभाष सिंह (जेसी-520102ए), 01 अप्रैल 2007	नायब सूबेदार रमेश मोक्तरान (जेसी-580077एम), जैक राईफल्स, 01 नवम्बर 2006
नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-520120एच), 28 मई 2007+ (सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)	नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-580086पी), जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2007
नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जेसी-520159पी), 01 अप्रैल 2007	नायब सूबेदार जय गोपाल (जेसी-580075एल), जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2007
नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-520101एक्स), 01 अप्रैल 2007	नायब सूबेदार परकाश चन्द (जेसी-579786वाई), जैक राईफल्स, 01 मार्च 2007
नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-520051एक्स), 08 जून 2007+ (सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2007 से)	नायब सूबेदार नरिन्दर चन्द कटोच (जेसी-579898वाई), जैक राईफल्स, 01 मार्च 2007
नायब सूबेदार अमृत लाल (जेसी-519843एच), 01 मई 2007	नायब सूबेदार युधवीर सिंह (जेसी-579978डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 मार्च 2007
नायब सूबेदार राम लाल (जेसी-519854एक्स), 01 मई 2007	नायब सूबेदार जय सिंह (जेसी-579870वाई), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार देश राज (जेसी-519879के), 13 जून 2007+ (सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से)	नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-579921एफ), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार नरेन्द्र प्रकाश (जेसी-519880वाई), 02 जून 2007+ (सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से)	नायब सूबेदार नवीन कुमार (जेसी-579944एच), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-519997एक्स), 08 मई 2007+ (सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से)	नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-579996वाई), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार रूप लाल (जेसी-519998ए), 08 मई 2007+ (सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से)	नायब सूबेदार करतार सिंह (जेसी-580010एक्स), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार हरदीप सिंह (जेसी-520093के), 03 जून 2007+ सूबेदार (लिपिक) के रैंक में	नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-580011ए), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार (लिपिक) नरेश चन्द शर्मा (जेसी-520029एम), 01 मई 2007 जम्मू और काश्मीर राईफल्स सूबेदार जी.डी. के रैंक में	नायब सूबेदार कमलजीत सिंह (जेसी-580043एच), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार निर्मल सिंह जमवाल (जेसी-579621ए), जैक राईफल्स, 01 अक्टूबर 2006	नायब सूबेदार वलकार सिंह (जेसी-580136एक्स), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार शियाम सिंह (जेसी-579622एच), जैक राईफल्स, 01 अक्टूबर 2006	नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-580137ए), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007
नायब सूबेदार शाम सिंह (जेसी-580158डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 अक्टूबर 2006	नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-579828ए), जैक राईफल्स, 01 मई 2007
	नायब सूबेदार बच्चन दास (जेसी-580118पी), जैक राईफल्स, 01 मई 2007
	नायब सूबेदार मधु सुदन (जेसी-579897डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 जून 2007

नायब सूबेदार गणेश बहादुर थापा (जेसी-579927एच), जैक राईफल्स,
01 जून 2007

नायब सूबेदार ओंकार चन्द (जेसी-579986एफ), जैक राईफल्स,
01 जून 2007

नायब सूबेदार विजय कुमार भण्डारी (जेसी-579988ए), जैक राईफल्स,
01 जून 2007

नायब सूबेदार गुरान दास (जेसी-579995डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 जून 2007

नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर राना (जेसी-580001डब्ल्यू), जैक
राईफल्स, 01 जून 2007

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-580020एफ), जैक राईफल्स,
01 जून 2007

नायब सूबेदार रघुनाथ सिंह (जेसी-580058एल), जैक राईफल्स,
01 जून 2007

नायब सूबेदार मदन लाल बनियाल (जेसी-580123ए), जैक राईफल्स,
01 जून 2007

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-579852डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-579866डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार हेम राज (जेसी-579896एन), जैक राईफल्स, 01 जुलाई
2007

नायब सूबेदार रविन्दर नाथ (जेसी-580024एक्स), जैक राईफल्स,
01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-580025ए), जैक राईफल्स,
01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-579974ए), जैक राईफल्स,
01 अगस्त 2007

नायब सूबेदार बालक राम (जेसी-580018के), जैक राईफल्स,
01 अगस्त 2007

सूबेदार (लिपिक) जी.डी. के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) विरेन्दर सिंह (जेसी-580064वाई), जैक
राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) दिवान चन्द (जेसी-579817एन), जैक
राईफल्स, 01 मई 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) सरदारी लाल (जेसी-579818डब्ल्यू), जैक
राईफल्स, 01 जुलाई 2007

जम्मू और कश्मीर राईफल्स

सूबेदार मेजर जी.डी. के रैंक में

सूबेदार मदन लाल (जेसी-579060डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 मार्च
2007

सूबेदार रवि दत्त (जेसी-579114एम), जैक राईफल्स, 01 जून 2007

सूबेदार जी.डी. के रैंक में

नायब सूबेदार शशी पॉल (जेसी-579825एम), जैक राईफल्स,
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार तिल्लक राज (जेसी-579826पी), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रशपाल चन्द भगत (जेसी-579891पी), जैक राईफल्स,
19 जनवरी 2006

नायब सूबेदार रंधीर सिंह (जेसी-580007एक्स), जैक राईफल्स,
01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-580015डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
19 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-579928एल), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-579939एक्स), जैक राईफल्स,
01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-579744एम), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार योगराज सिंह (जेसी-579792एम), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-579872के), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार काबुल सिंह (जेसी-579776पी), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी-579873एम), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-579892एक्स), जैक राईफल्स,
01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार ओम दत्त (जेसी-579907पी), जैक राईफल्स, 25 फरवरी
2007

नायब सूबेदार नरिन्दर सिंह (जेसी-579784एन), जैक राईफल्स,
01 मार्च 2007

नायब सूबेदार रोमेश लाल (जेसी-579799डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 मार्च 2007

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-579845ए), जैक राईफल्स,
01 मार्च 2007

नायब सूबेदार बीरेन्दर सिंह (जेसी-579979एक्स), जैक राईफल्स,
01 मार्च 2007

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जेसी-579991ए), जैक राईफल्स, 01 मार्च
2007

नायब सूबेदार सुदर्शन कुमार (जेसी-579741वाई), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार प्रवीन कुमार काटल (जेसी-579773एफ), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-579782एच), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार कमल कुमार राणा (जेसी-579797एल), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार दर्शन कुमार (जेसी-579806एफ), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-579848एन), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार हरबंस लाल (जेसी-579857पी), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार सागरा सिंह (जेसी-579886के), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार हंस राज धियाल (जेसी-579894एच), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार यादु नाथ (जेसी-579919के), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार रमेश चन्द कौडल (जेसी-579922के), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार बच्चन लाल (जेसी-579932एन), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार गोपाल छत्री (जेसी-579950डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार रविन्दर सिंह (जेसी-579968एम), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-579973एक्स), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार चैन सिंह (जेसी-579985के), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-579993एल), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार छवी लाल (जेसी-580003एफ), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार रविन्दर कुमार (जेसी-580017एफ), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-580041एक्स), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार लेख राज (जेसी-580042एक्स), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-580050वाई), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-579858एक्स), जैक राईफल्स, 27 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार अमीन चन्द (जेसी-579814ए), जैक राईफल्स, 01 मई 2007

नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-579876ए), जैक राईफल्स, 01 मई 2007

नायब सूबेदार रसिला राम (जेसी-579952एफ), जैक राईफल्स, 01 मई 2007

नायब सूबेदार निक्का राम (जेसी-579994एन), जैक राईफल्स, 01 मई 2007

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-580000एन), जैक राईफल्स, 01 मई 2007

नायब सूबेदार कमलजीत (जेसी-580022एम), जैक राईफल्स, 01 मई 2007

नायब सूबेदार देश राज सकलानी (जेसी-580027एल), जैक राईफल्स, 01 मई 2007

नायब सूबेदार धियान चन्द (जेसी-580038के), जैक राईफल्स, 01 मई 2007

नायब सूबेदार गारू राम (जेसी-580092एल), जैक राईफल्स, 01 मई 2007

सूबेदार (लिपिक) जी.डी. के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) नरेन्दर कुमार (जेसी-579677एम), जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) गियान पाल सिंह (जेसी-579709के), जैक राईफल्स, 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) भगवान सिंह चौधरी (जेसी-579710वाई), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) बलबीर सिंह (जेसी-579839एम), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) धर्मपाल शर्मा (जेसी-579949एफ), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) रमेश चन्द (जेसी-579816एल), जैक राईफल्स, 01 मई 2007

प्रेनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लियाकत अली (सं. 2680151एन अब जेसी-450358एच), 29 दिसम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006)

हवलदार मौहम्मद सागीर अनसारी (सं. 2677243एक्स अब जेसी-450359एल), 29 जून 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007)

हवलदार ओम प्रकाश चौहान (सं. 2685775के अब जेसी-450360ए), 01 मार्च 2007

हवलदार सागर कट्यथ (सं. 2983930ए अब जेसी-450361एच), 29 मार्च 2007

हवलदार जंग बहादुर सिंह (सं. 4268778ए अब जेसी-450362एल), 01 अप्रैल 2007

हवलदार रोमेश सिंह (सं. 2678511ए अब जेसी-450363एन), 01 अप्रैल 2007

हवलदार राम कौवर मीना (सं. 2680060के अब जेसी-450364डब्ल्यू), 22 मई 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अप्रैल 2007)

हवलदार विधा नन्द (सं. 2677208एम अब जेसी-450365वाई), 01 मई 2007

हवलदार जगत सिंह (सं. 2679103एफ अब जेसी-450366एफ), 01 मई 2007

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 2680927डब्ल्यू अब जेसी-450367के), 01 मई 2007

हवलदार सुनील कुमार (सं. 2677989एल अब जेसी-450368एम), 01 मई 2007

हवलदार दल सिंह (सं. 2680618एन अब जेसी-450369पी), 01 मई 2007

हवलदार सुभाष सिंह (सं. 2679760एल अब जेसी-450370के), 01 मई 2007

हवलदार दर्शन कुमार (सं. 2680068डब्ल्यू अब जेसी-450371एम), 07 मई 2007

हवलदार दिनेश कुमार, एसएम (सं. 2680086वाई अब जेसी-450372पी), 08 मई 2007

हवलदार रनजीत सिंह (सं. 2681803एन अब जेसी-450373एक्स), 12 मई 2007

हवलदार रामबीर सिंह (सं. 2678368वाई अब जेसी-450374ए), 01 जून 2007

हवलदार सादीक मोहम्मद (सं. 2679054के अब जेसी-450375एच), 01 जून 2007

हवलदार जीत सिंह (सं. 2683508के अब जेसी-450376एल), 01 जून 2007

हवलदार हरी प्रताप सिंह (सं. 2677047पी अब जेसी-450377एन), 01 जून 2007

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2680622डब्ल्यू अब जेसी-450378डब्ल्यू), 01 जून 2007

हवलदार जगदेव सिंह राजपूत (सं. 2678141एल अब जेसी-450379वाई), 01 जून 2007

हवलदार यशपाल सिंह (सं. 2681929एम अब जेसी-450380एन), 01 जून 2007

हवलदार जगदीश लाल (सं. 2678480एल अब जेसी-450381डब्ल्यू), 01 जून 2007

हवलदार रोसर खान (सं. 2676891एल अब जेसी-450382वाई), 05 जून 2007

हवलदार दिनेश कुमार सिंह (सं. 2680960एन अब जेसी-450383एफ), 14 जून 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जून 2007)

हवलदार राम शंकर (सं. 2679102वाई अब जेसी-450384के), 19 जून 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार क्लर्क अमलेश कुमार सिंह (सं. 2680136वाई अब जेसी-450385एम), 01 जून 2007

कुमाऊँ रेजिमेन्ट

सूबेदार के पद में

नायब सूबेदार नन्दन सिंह (जेसी-539714एम), 02 जून 2007

नायब सूबेदार सुरज भान यादव (जेसी-539655एल), 02 जून 2007

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह धामी (जेसी-539731एम), 27 जुलाई 2007

नायब सूबेदार फकीर सिंह (जेसी-539715पी), 20 जुलाई 2007

नायब सूबेदार सुन्दर सिंह (जेसी-539730के), 27 जुलाई 2007

गढ़वाल राइफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बीरेन्द्र सिंह, सेना मैडल (जेसी-528849एन), 01 दिसम्बर 2006

सूबेदार खुशाल सिंह (जेसी-528478डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007

सूबेदार चत्तर सिंह (जेसी-529039एक्स), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार कुन्दन सिंह (जेसी-528892पी), 01 मई 2007

सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-528822डब्ल्यू), 01 मई 2007

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-529579एन), 01 जून 2006

नायब सूबेदार महिपाल सिंह (जेसी-529692एल), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार मनबर सिंह (जेसी-529695वाई), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-529607एक्स), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार शिव सिंह (जेसी-529404एन), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार सतेश्वर प्रसाद (जेसी-529600एन), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह (जेसी-529643एच), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार चन्द्र सिंह, सेना मैडल (जेसी-529512एक्स), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार प्रताप सिंह रावत (जेसी-529538एम), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-529513ए), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार दरवान सिंह (जेसी-529788एन), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-529567एफ), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार तुला राम (जेसी-529553एफ), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-529581एन), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार सुदर्शन नेगी (जेसी-529609एच), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार धनी लाल (जेसी-529608ए), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-529629डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार प्रवेन्द सिंह (जेसी-529632एन), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार बीरेन्द्र सिंह (जेसी-529634एफ), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार सर्वेश्वर प्रसाद (जेसी-529637पी), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार गिरीश चन्द्र (जेसी-529656ए), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-529654पी), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-529684एम), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार अबल सिंह (जेसी-529670एम), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार बृजमोहन सिंह (जेसी-529713डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-529759वाई), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार राम चरन प्रसाद (जेसी-529760एन), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार यशोधर सिंह (जेसी-529703एम), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-529753एक्स), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार बीरेन्द्र सिंह (जेसी-529770एक्स), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-529771ए), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-529772एच), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार सोबन सिंह, सेना मैडल (जेसी-529781के), 01 अप्रैल

2007

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-529799ए), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार नथी सिंह पुन्डीर (जेसी-529833पी), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार बिजय सिंह (जेसी-529832एम), 01 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार खुशाल सिंह (जेसी-529671पी), 03 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार चन्दन सिंह (जेसी-529610एक्स), 06 अप्रैल 2007
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-529655एक्स), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार शूरबीर सिंह (जेसी-529726एन), 01 मई 2007

नायब सूबेदार यशवन्त सिंह (जेसी-529672एक्स), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार पंचम सिंह नेगी (जेसी-529776वाई), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार शतीष चन्द्र जोशी (जेसी-529704पी), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार कृष्णा नन्द (जेसी-529867एच), 01 मई 2007
 नायब सूबेदार यशवन्त सिंह रावत (जेसी-529380वाई), 18 मई 2007

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) दलबीर सिंह (जेसी-529591एक्स), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) सन्तोष कुमार (जेसी-529605एम), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार (लिपिक) तीरथ सिंह (जेसी-529616वाई), 01 जून 2007

पंजाब रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर रैंक में

सूबेदार हरप्रकाश सिंह (जेसी-428450एफ), 01 जून 2007

सूबेदार रैंक में

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-429676वाई), 01 मई 2007

नायब सूबेदार रतन चंद (जेसी-429728के), 01 मई 2007

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-429358पी), 08 मई 2007

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-429631वाई), 01 जून 2007

नायब सूबेदार विश्वा नाथ शर्मा (जेसी-429573ए), 01 जून 2007

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-429718ए), 01 जून 2007

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-429802ए), 01 जून 2007

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-429831पी), 01 जून 2007

नायब सूबेदार रतन चंद ठाकुर (जेसी-429823डब्ल्यू), 01 जून 2007

नायब सूबेदार जय करण मलिक (जेसी-429898एन), 01 जून 2007

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-429955के), 01 जून 2007

एस. अशरफ

अवर सचिव

सं. 552, दिनांक 22 अक्टूबर 2007---राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार धनुष धारी (सं. 14407814एल अब जेसी-270130के),
 13 नवम्बर 2006/01 जुलाई 2006 *

हवलदार विनोद सिंह (सं. 14481593वाई अब जेसी-270131एम),
01 दिसम्बर 2006/16 अगस्त 2006 *

हवलदार काशिर बबन दादा (सं. 14493594एन अब
जेसी-270132पी), 11 दिसम्बर 2006/20 अगस्त 2006 *

बीएचएम अमरीक सिंह (सं. 14375631एक्स अब
जेसी-270133एक्स), 09 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006 *

हवलदार मंगत सिंह (सं. 14481755वाई अब जेसी-270134ए),
04 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006 *

हवलदार मिथुन सिंह (सं. 14487060एम अब जेसी-270135एच),
16 जनवरी 2007/01 नवम्बर 2006

बीएचएम गुरुजुबेली असीरी नायडू (सं. 14382433डब्ल्यू अब
जेसी-270136एल), 26 दिसम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार सिंह राज (सं. 14475806एल अब जेसी-270137एन),
20 दिसम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार जगत नारायण सिंह (सं. 14492820एन अब
जेसी-270138डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2006

हवलदार राम बहादुर छेत्री (सं. 14373823एक्स अब
जेसी-270139वाई), 12 जनवरी 2007/18 नवम्बर 2006 *

बीएचएम मोहन लाल (सं. 14478981एल अब जेसी-270140एन),
13 जनवरी 2007/30 नवम्बर 2006 *

आरएचएम बलबीर सिंह (सं. 14369794डब्ल्यू अब
जेसी-270141डब्ल्यू), 10 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 *

हवलदार ग्यान सिंह (सं. 14497445एक्स अब जेसी-270142वाई),
30 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 *

हवलदार सोहन सिंह (सं. 14372480ए अब जेसी-270143एफ),
13 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 *

हवलदार उदय सिंह (सं. 14381782एन अब जेसी-270144के),
01 जनवरी 2007

हवलदार राम प्रकाश (सं. 14364201पी अब जेसी-270145एम),
29 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार वजन सिंह (सं. 14382142डब्ल्यू अब जेसी-270146पी),
18 फरवरी 2007/23 मई 2006 *

हवलदार नन्नावरे बालू (सं. 15108092एन अब जेसी-270147एक्स),
11 दिसम्बर 2006/20 अगस्त 2006 *

आरएचएम श्यामलाल शर्मा (सं. 14482665के अब जेसी-270148ए),
09 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार आर श्रवण कुमार (सं. 15114772के अब जेसी-270149एच),
26 दिसम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार बैजनाथ सिंह (सं. 14365219एक्स अब जेसी-270150एक्स),
15 फरवरी 2007/06 नवम्बर 2006 *

हवलदार सहदेव ठाकुर (सं. 14379142एल अब जेसी-270151ए),
15 जनवरी 2007/26 नवम्बर 2006 *

हवलदार मायाधर पाणीग्रही (सं. 14378117ए अब जेसी-270152एच),
30 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 *

हवलदार जगदीश कुमार (सं. 14370616ए अब जेसी-270153एल),
23 जनवरी 2007/28 दिसम्बर 2006 *

हवलदार वीरपाल सिंह (सं. 14480954ए अब जेसी-270154एन),
13 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

बीएचएम हीरा लाल (सं. 14487602एल अब जेसी-270155डब्ल्यू),
11 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

आरएचएम बसीरुद्दीन अंसारी (सं. 14360058डब्ल्यू अब
जेसी-270156वाई), 08 फरवरी 2007/04 जनवरी 2007 *

हवलदार सत्या पाल (सं. 15110543एफ अब जेसी-270157एफ),
13 फरवरी 2007/09 जनवरी 2007 *

हवलदार सोमन पी (सं. 14364546डब्ल्यू अब जेसी-270158के),
01 फरवरी 2007

आरएचएम सुरजीवन सिंह (सं. 14377953एक्स अब
जेसी-270159एम), 12 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

हवलदार पाटील महादेव भगवान (सं. 14497067के अब
जेसी-271160एफ), 01 अगस्त 2007/01 फरवरी 2007 *

हवलदार जय पाल (सं. 14487895एफ अब जेसी-270161के),
01 फरवरी 2007

हवलदार करुणाकरन जी (सं. 14498344डब्ल्यू अब
जेसी-270054एच), 06 नवम्बर 2006/31 मई 2006 *

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 14498948पी अब जेसी-270055एल),
06 नवम्बर 2006/01 जून 2006 *

हवलदार इलुमलाई ए (सं. 14369133डब्ल्यू अब जेसी-270056एन),
24 नवम्बर 2006/01 अगस्त 2006 *

हवलदार शिवपाल सिंह (सं. 14362838ए अब जेसी-270057डब्ल्यू),
19 जनवरी 2007/16 अगस्त 2006 *

बीएचएम ओम प्रकाश (सं. 13885743वाई अब जेसी-270058वाई),
27 नवम्बर 2006/30 अगस्त 2006 *

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 14478803एच अब जेसी-270059एफ),
27 नवम्बर 2006/30 अगस्त 2006 *

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 15106947एम अब जेसी-270060डब्ल्यू),
18 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006 *

हवलदार चरणजीत सिंह (सं. 15109171पी अब जेसी-270061वाई),
19 जनवरी 2007/01 नवम्बर 2006 *

बीएचएम हिन्द्यादेव निवरुती राऊत (सं. 14360601के अब
जेसी-270062एफ), 16 दिसम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार चौधरी भाऊ शंकर (सं. 14384102एन अब जेसी-270063के),
09 जनवरी 2007/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार दशरथ केरू खोन्डगे (सं. 14488895एन अब जेसी-270064एम), 10 जनवरी 2007/30 नवम्बर 2006 *

हवलदार शंकर पांडा (सं. 14371704एच अब जेसी-270065पी), 04 दिसम्बर 2006/30 नवम्बर 2006 *

हवलदार छोदू राम (सं. 14380602एन अब जेसी-270066एक्स), 15 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 *

हवलदार विलास राजा राम पाटिल (सं. 14373267एम अब जेसी-270067ए), 01 जनवरी 2007

हवलदार चरण सिंह (सं. 14481052एक्स अब जेसी-270068एच), 31 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार ग्यामवीर सिंह (सं. 14375146के अब जेसी-270069एल), 01 फरवरी 2007

आरएचएम गुन्थला वेन्कटेश्वर (सं. 15107159पी अब जेसी-270070ए), 12 जनवरी 2007/23 जून 2006 *

आरएचएम प्यारे लाल यादव (सं. 15109324एन अब जेसी-270071एच), 03 जुलाई 2006/23 जून 2006 *

हवलदार रामेन्द्र शर्मा (सं. 14369541एफ अब जेसी-270072एल), 09 अगस्त 2006/01 जुलाई 2006 *

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 14389967के अब जेसी-270073एन), 08 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006 *

आरएचएम शिवदासन के पी (सं. 14400281एल अब जेसी-270074डब्ल्यू), 12 जनवरी 2007/26 अक्टूबर 2006 *

आरएचएम देश राज (सं. 14399452एक्स अब जेसी-270075वाई), 16 नवम्बर 2006/26 अक्टूबर 2006 *

आरएचएम अरविंद कुमार सिंह (सं. 14408191वाई अब जेसी-270076एफ), 02 नवम्बर 2006/26 अक्टूबर 2006 *

आरएचएम जग्गा (सं. 15115652एक्स अब जेसी-270077के), 02 नवम्बर 2006/26 अक्टूबर 2006 *

आरएचएम रामधन (सं. 14411462डब्ल्यू अब जेसी-270078एम), 02 नवम्बर 2006/26 अक्टूबर 2006 *

आरएचएम इन्द्र जीत तिवारी (सं. 15119335एन अब जेसी-270079पी), 13 नवम्बर 2006/26 अक्टूबर 2006 *

आरएचएम मिजय कुमार (सं. 15115338के अब जेसी-270080के), 02 नवम्बर 2006/26 अक्टूबर 2006 *

आरएचएम विनोद सिंह तंवर (सं. 15114083एच अब जेसी-270081एम), 02 नवम्बर 2006/26 अक्टूबर 2006 *

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 15114433के अब जेसी-270082पी), 19 दिसम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 *

आरएचएम सुजीत एम पी (सं. 14415664पी अब जेसी-270083एक्स), 05 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार राजपाल (सं. 14394127एन अब जेसी-270194पी), 17 फरवरी 2007/21 अगस्त 2006 *

आरएचएम माने बापू लक्ष्मण (सं. 14498748वाई अब जेसी-270195एक्स), 01 मार्च 2007/01 अक्टूबर 2006 *

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14485737एन अब जेसी-270196ए), 12 फरवरी 2007/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार पच्याप्पन आर (सं. 15103474एन अब जेसी-270197एच), 10 फरवरी 2007/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार प्रोबीन चन्द्र बोरा (सं. 14487680एच अब जेसी-270198एल), 18 फरवरी 2007/13 नवम्बर 2006 *

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 14488482के अब जेसी-270199एन), 18 फरवरी 2007/13 नवम्बर 2006 *

हवलदार ओम प्रकाश शुक्ला (सं. 14377821के अब जेसी-270200एक्स), 07 फरवरी 2007/20 नवम्बर 2006 *

हवलदार राम लाल (सं. 14383886एन अब जेसी-270201ए), 19 फरवरी 2006/30 नवम्बर 2006 *

हवलदार प्रकाश चन्द पंत (सं. 14499861ए अब जेसी-270202एच), 04 फरवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 *

हवलदार मोहम्मद खाजामोहिनुद्दीन (सं. 15109981एक्स अब जेसी-270203एल), 09 फरवरी 2007/22 दिसम्बर 2007 *

हवलदार जोगी नागेश्वर राव (सं. 14497097एफ अब जेसी-270204एन), 10 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार गजेन्द्र सिंह रावत (सं. 15103324एक्स अब जेसी-270205डब्ल्यू), 12 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार श्री नुरसाफी खान (सं. 14408057एन अब जेसी-270206वाई), 27 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

आरएचएम विजय पाल (सं. 14481808एम अब जेसी-270207एफ), 02 जनवरी 2007

हवलदार अनिल कुमार घोष (सं. 14476029ए अब जेसी-270208के), 01 मार्च 2007

बीएचएम राधाकृष्णन पी एन (सं. 14479028एच अब जेसी-270209एम), 03 मार्च 2007/01 मार्च 2007 *

हवलदार कमला कान्त सिंह (सं. 15107391ए अब जेसी-270162एम), 22 जनवरी 2007/25 जनवरी 2006 *

हवलदार डेविड (सं. 14378073एन अब जेसी-270163पी), 01 अगस्त 2006/01 जून 2006 *

आरएचएम जय प्रकाश राय (सं. 14485186एन अब जेसी-270164एक्स), 21 दिसम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006 *

हवलदार गौतम मिश्रा (सं. 14485247ए अब जेसी-270165ए), 21 दिसम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006 *

हवलदार उमा शंकर तिवारी (सं. 14380614एच अब जेसी-270166एच), 19 नवम्बर 2006/31 अगस्त 2006 *

हवलदार कश्मीर सिंह (सं. 14490931एम अब जेसी-270167एल), 21 दिसम्बर 2006/01 नवम्बर 2006 *

बीएचएम रोशन लाल (सं. 14375787डब्ल्यू अब जेसी-270168एन), 11 जनवरी 2007/30 नवम्बर 2006 *

बीएचएम देव करण (सं. 14384286एक्स अब जेसी-270169डब्ल्यू), 15 फरवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 *

हवलदार कुमार स्वामी हिरेमथ (सं. 14374876एच अब जेसी-270170एल), 21 फरवरी 2007/21 दिसम्बर 2006 *

हवलदार अभय राम शर्मा (सं. 14371101एम अब जेसी-270171एन), 10 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

आरएचएम जसविन्दर सिंह (सं. 14375723एल अब जेसी-270172डब्ल्यू), 23 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार ब्रम्हा शंकर यादव (सं. 15115026एन अब जेसी-270173वाई), 15 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार लाखन सिंह (सं. 14388941एच अब जेसी-270174एफ), 27 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार प्रल्हादराम कुमावत (सं. 14495811एक्स अब जेसी-270175के), 15 फरवरी 2007/14 जनवरी 2007 *

बीएचएम पाटील कृष्णनाथ यशवंत (सं. 14483724एक्स अब जेसी-270176एम), 15 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

हवलदार हुकूम सिंह (सं. 14499074वाई अब जेसी-270177पी), 15 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 14385675के अब जेसी-270178एक्स), 22 फरवरी 2007/14 मई 2006 *

हवलदार पूर्ण सिंह (सं. 14366831एन अब जेसी-270179ए), 23 जनवरी 2007/01 नवम्बर 2006 *

हवलदार वाडीवाल (सं. 15101285एल अब जेसी-270180पी), 01 मार्च 2007/06 नवम्बर 2006 *

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं. 14372272एल अब जेसी-270181एक्स), 21 फरवरी 2007/30 नवम्बर 2006 *

हवलदार सुन्दर पाल (सं. 15119073एच अब जेसी-270182ए), 03 फरवरी 2007/30 नवम्बर 2006 *

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 15110733एन अब जेसी-270183एच), 21 फरवरी 2007/30 नवम्बर 2006 *

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 14394000एल अब जेसी-270184एल), 02 फरवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 *

हवलदार राजेन बरुवाह (सं. 14373030पी अब जेसी-270185एन), 21 फरवरी 2007/03 दिसम्बर 2006 *

हवलदार यशबीर सिंह तोमर (सं. 14482905डब्ल्यू अब जेसी-270186डब्ल्यू), 22 जनवरी 2007/19 दिसम्बर 2006 *

बीएचएम हरभजन सिंह (सं. 14484423ए अब जेसी-270187वाई), 11 फरवरी 2007/23 दिसम्बर 2006 *

हवलदार शांताराम गणपति सकपाल (सं. 14492276एक्स अब जेसी-270188एफ), 10 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार हिरा सिंह गुजर (सं. 13885965एन अब जेसी-270189के), 12 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार जय प्रकाश सिंह (सं. 14363932डब्ल्यू अब जेसी-270190वाई), 12 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 *

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 14484825एक्स अब जेसी-270191एफ), 05 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 *

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14489246पी अब जेसी-270192के), 06 मार्च 2007/01 फरवरी 2007 *

हवलदार विश्वा कुमार के (सं. 14380442वाई अब जेसी-270193एम), 03 मार्च 2007/01 मार्च 2007 *

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

रिमाउन्ट व पशुचिकित्सा कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफेदार/ड्रेसर सुरेश कुमार (सं. 7239078एम अब जेसी-797416एल), 01 मार्च 2007

दफेदार/क्लर्क विजय श्याम (सं. 7239262एक्स अब जेसी-797417एन), 01 अप्रैल 2007

दफेदार/राईडर राम लक्ष्मण माली (सं. 7240100वाई अब जेसी-797418डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

दफेदार/राईडर मुनेश कुमार (सं. 7239731पी अब जेसी-797419वाई), 01 मई 2007

दफेदार/राईडर चूना राम चौधरी (सं. 7239465एफ अब जेसी-797420एन), 01 मई 2007

दफेदार/राईडर के दामोदर (सं. 7239510एच अब जेसी-797421डब्ल्यू), 01 मई 2007

दफेदार/राईडर संजीव कुमार (सं. 7239625डब्ल्यू अब जेसी-797422वाई), 01 मई 2007

दफेदार/राईडर खुशदी राम सिंह (सं. 7239663एम अब जेसी-797423एफ), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर ईदाल शेख (सं. 7239260एम अब जेसी-797424के), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर रमेश चंद (सं. 7239518पी अब जेसी-797425एम), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर हरेन्दर सिंह (सं. 7239619एच अब जेसी-797426पी), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर मनोज कुमार चौधरी (सं. 7239101पी अब जेसी-797427एक्स), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर मुरारी शर्मा (सं. 7239559वाई अब जेसी-797428ए), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर दीना नाथ पाण्डे (सं. 7238934एम अब जेसी-797429एच), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर बलवान सिंह (सं. 7238859एन अब जेसी-797430एक्स), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर बराई तेरसिंह धनजी भाई (सं. 7239460एच अब जेसी-797431ए), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर अमृत लाल पटेल (सं. 7239527डब्ल्यू अब जेसी-797432एच), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर अशोक कुमार चौरसिया (सं. 7239549पी अब जेसी-797433एल), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर बलवान सिंह (सं. 7239553एक्स अब जेसी-797434एन), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर अब्बासी जूसब भाई उसमान भाई (सं. 7239593एक्स अब जेसी-797435डब्ल्यू), 01 मई 2007

दफेदार/ड्रेसर नेत्र पाल सिंह (सं. 7239068एच अब जेसी-797436वाई), 01 अक्टूबर 2006

दफेदार/ड्रेसर लाल बिहारी पाल (सं. 7239542एल अब जेसी-797437एफ), 01 अक्टूबर 2006

दफेदार/ड्रेसर विनोद कुमार (सं. 7239257एम अब जेसी-797438के), 01 मई 2006

दफेदार/राईडर अर्जुन सिंह (सं. 7239719एन अब जेसी-797439एम), 01 जून 2007

दफेदार/ड्रेसर रोहतास कुमार (सं. 7239615एम अब जेसी-797440एफ), 01 जून 2007

दफेदार/ड्रेसर गोपाल प्रसाद गुप्ता (सं. 7239620एक्स अब जेसी-797441के), 01 जून 2007

दफेदार/ड्रेसर मुकेश कुमार (सं. 7239623एल अब जेसी-797442एम), 01 जून 2007

दफेदार/ड्रेसर एम शोखर रेड्डी (सं. 7239631के अब जेसी-797443पी), 01 जून 2007

दफेदार/क्लर्क हरीश चन्दर (सं. 7239943ए अब जेसी-797444एक्स), 01 जुलाई 2007

दफेदार/राईडर रे सिंह (सं. 7239736एन अब जेसी-797445ए), 01 जुलाई 2007

दफेदार/क्लर्क मानाबेंदू बिसवास (सं. 7239274एम अब जेसी-797446एच), 01 अगस्त 2007

दफेदार/क्लर्क अली कादिर मंडल (सं. 7239277ए अब जेसी-797447एल), 01 अगस्त 2007

दफेदार/क्लर्क रनधीर बहादुर सिंह (सं. 7239279एल अब जेसी-797448एन), 01 अगस्त 2007

दफेदार/क्लर्क मोहन दास ए के (सं. 7239289पी अब जेसी-797449डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

आरडीम/फैरियर चेनी राम साकीया (सं. 7238855एक्स अब जेसी-797450एल), 01 अगस्त 2007

दफेदार/ड्रेसर राकेश कुमार (सं. 7239637एल अब जेसी-797451एन), 01 अगस्त 2007

दफेदार/ड्रेसर दुर्गा लाल (सं. 7239640एल अब जेसी-797452डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

दफेदार/ड्रेसर खांत बाबू भाई खूमा भाई (सं. 7239648एक्स अब जेसी-797453वाई), 01 अगस्त 2007

दफेदार/ड्रेसर राकेश कुमार शर्मा (सं. 7239675एफ अब जेसी-797454एफ), 01 अगस्त 2007

दफेदार/एडिटी प्रमोद परिडा (सं. 7239333एन अब जेसी-797455के), 01 सितम्बर 2007

पी. रामा शास्त्री
अवर सचिव

(एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 553, दिनांक 23 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

सूबेदार मेजर आरटीजन (एवीएन) के रैंक में

सूबेदार इन्द्रपाल सिंह (जेसी-753729के), 01 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006*

सूबेदार मेजर आरटीजन (ईसी) के रैंक में

सूबेदार सुधाकरन के (जेसी-752380एल), 01 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006*

सूबेदार ब्रह्म प्रकाश (जेसी-751984एक्स), 01 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006*

सूबेदार शशी पाल रानौत (जेसी-751954ए), 29 सितम्बर 2006/
01 सितम्बर 2006*

सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-749831पी), 02 नवम्बर 2006/01 नवम्बर 2006*

सूबेदार मेजर क्लर्क (जी डी) के रैंक में

सूबेदार असाराम यादव (जेसी-747895एफ), 01 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006*

सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-748131पी), 01 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006*

सूबेदार अमरा राम सरेल (जेसी-747689एक्स), 26 सितम्बर 2006/
01 सितम्बर 2006*

सूबेदार राम राज पाण्डेय (जेसी-747944वाई), 01 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006 *

सूबेदार सरथ कुमार पी सी (जेसी-747922ए), 26 सितम्बर 2006/
01 सितम्बर 2006 *

सूबेदार एम डी अकतर हुसैन (जेसी-747924एल), 01 अक्टूबर
2006/01 अक्टूबर 2006 *

सूबेदार मेजर (डी डब्ल्यू) के रैंक में

सूबेदार परमात्मा सिंह (जेसी-752914एल), 27 जुलाई 2006/
01 जून 2006 *

सूबेदार राम दिनेश ठाकुर (जेसी-752811एम), 04 अक्टूबर 2006/
01 जुलाई 2006 *

सूबेदार मेजर (एस के टी) के रैंक में

सूबेदार धर्मपाल सिंह (जेसी-749038ए), 07 अक्टूबर 2006/
01 अगस्त 2006 *

सूबेदार भगवान प्रसाद नायक (जेसी-748830ए), 01 मई 2006/
01 मई 2006 *

सूबेदार मेजर (टेक) के रैंक में

सूबेदार सभाजीत पान्डेय (जेसी-749732एम), 07 अगस्त 2006/
01 जून 2006 *

सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-749748एक्स), 01 मार्च 2006/
01 मार्च 2006 *

सूबेदार श्यामपाल सिंह (जेसी-749385वाई), 13 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

सूबेदार भागवती दास (जेसी-749828पी), 01 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006 *

सूबेदार सतीष चन्दा श्रीवास्तवा (जेसी-749809के), 01 अक्टूबर
2006/01 अक्टूबर 2006 *

सूबेदार सुखबीर शर्मा (जेसी-749829एक्स), 03 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006 *

सूबेदार के गुनसेखरन (जेसी-749548एफ), 01 अगस्त 2006/
01 अगस्त 2006 *

सूबेदार देवीन्द्र कुमार बक्षी (जेसी-749511ए), 03 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006 *

सूबेदार नृपेन कुमार बिसवास (जेसी-749468के), 01 मार्च 2006/
01 मार्च 2006 *

सूबेदार राम नरेश सिंह (जेसी-750116वाई), 25 जुलाई 2006/
01 जून 2006 *

सूबेदार सुरेश कुमार नायर पी पी (जेसी-749734एक्स), 01 जून
2006/01 जून 2006 *

सूबेदार डी पलानी (जेसी-749967वाई), 06 नवम्बर 2006/01 नवम्बर
2006 *

सूबेदार पुलक कुमार मन्डल (जेसी-747282एफ), 01 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

सूबेदार सजीवन लाल (जेसी-748400डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

सूबेदार एम डी नसीमुद्दीन एस के (जेसी-749737एल), 26 सितम्बर
2006/01 सितम्बर 2006 *

सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-749509एच), 03 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006 *

सूबेदार दया राम (जेसी-750826डब्ल्यू), 16 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006 *

सूबेदार शशी धरन जी (जेसी-749545एन), 03 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006 *

सूबेदार जान एम जी (जेसी-749358पी), 02 फरवरी 2006/01 फरवरी
2006 *

सूबेदार मेजर (टेक ए वी एन) के रैंक में

सूबेदार विजय कुमार सिंह (जेसी-753722ए), 01 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006 *

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।)

एन. के. कश्मीरा
अपर सचिव

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार/एसकेटी एम टी चंदन सिंह नेगी (सं. 6921784एफ अब
जेसी-727527एल), 01 अगस्त 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार/एसकेटी एम टी मुरली पी एस (सं. 6921757एक्स अब
जेसी-727528एन), 17 जुलाई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2007से दी जाएगी)

हवलदार/अम्युनिशन तकनीशियन कोलि सत्यप्पा दुंडप्पा
(सं. 6924634डब्ल्यू अब जेसी-727529डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

हवलदार/अम्युनिशन तकनीशियन एस देवेन्द्रन (सं. 6925185वाई अब
जेसी-727530एल), 01 अगस्त 2007

हवलदार/अम्युनिशन तकनीशियन बास्कर पी (सं. 6929812एक्स अब
जेसी-727531एन), 01 अगस्त 2007

हवलदार/क्लर्क जी डी एस सी पाठक (सं. 6919860के अब जेसी-727532डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007

हवलदार/क्लर्क एस प्रोविजन के आर प्रसाद (सं. 6919863एक्स अब जेसी-727533वाई), 07 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार/क्लर्क एस प्रोविजन मिरगे महादेव तुकाराम (सं. 6919948एन अब जेसी-727534एफ), 03 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार/क्लर्क एस कन्ट्रोल ओम प्रकाश (सं. 6919862पी अब जेसी-727535के), 10 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जाएगी)

हवलदार/क्लर्क जी डी संजय उकिल (सं. 6919849एल अब जेसी-727536एम), 01 जुलाई 2007

हवलदार/क्लर्क जी डी हरीश चंद्रा (सं. 6919961एक्स अब जेसी-727537पी), 01 अगस्त 2007

हवलदार/क्लर्क जी डी सुभाष चन्द्र मंडल (सं. 6919984वाई अब जेसी-727538एक्स), 01 अगस्त 2007

हवलदार/क्लर्क जी डी क्रिश्ना सिंह खनका (सं. 6919988पी अब जेसी-727539ए), 11 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार/क्लर्क जी डी राम अवतार शर्मा (सं. 6919998वाई अब जेसी-727540पी), 24 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार/क्लर्क जी डी जगदीश सिंह कुश्वाह (सं. 6920044ए अब जेसी-727541एक्स), 01 अगस्त 2007

हवलदार/क्लर्क जी डी देवेन्द्रा मिश्रा (सं. 6920137पी अब जेसी-727542ए), 01 अगस्त 2007

हवलदार/क्लर्क जी डी कमल किशोर सिंह (सं. 6920138एक्स अब जेसी-727543एच), 01 अगस्त 2007

हवलदार/क्लर्क एस कन्ट्रोल एन जादूमनी सिंह (सं. 6920192एल अब जेसी-727544एल), 01 अगस्त 2007

हवलदार/क्लर्क एस कन्ट्रोल गेलिअन थांग (सं. 6920193एन अब जेसी-727545एन), 01 अगस्त 2007

हवलदार/एस के टी एम टी मनी मोहन चक्रवर्ती (सं. 6921812एच अब जेसी-727546डब्ल्यू), 01 अगस्त 2007

हवलदार/एसकेटी अम्युनिशन निर्मल कुमार चौधरी (सं. 69218191एम अब जेसी-727547वाई), 07 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार/एसकेटी अम्युनिशन दिनेश कुमार सिंह (सं. 6921821के अब जेसी-727548एफ), 01 अगस्त 2007

हवलदार/एसकेटी अम्युनिशन क्रिशन कुमार सिंह (सं. 6921822एम अब जेसी-727549के), 01 अगस्त 2007

हवलदार/एसएच जीडी सुभाष कोलाजी गौड (सं. 6918837के अब जेसी-727550वाई), 01 अगस्त 2007

हवलदार/एसएच जीडी किशन कुमार (सं. 6919064एफ अब जेसी-727551एफ), 01 अगस्त 2007

हवलदार/एसएच जीडी बाबू राम (सं. 6920183के अब जेसी-727552के), 03 अगस्त 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जाएगी)

हवलदार/एसएच जीडी कुमार शिवाजी राव (सं. 6920203एम अब जेसी-727553एम), 01 अगस्त 2007

हवलदार/एसएच जीडी बिस्वाजीता अधिकरी (सं. 6920460के अब जेसी-727554पी), 01 अगस्त 2007

हवलदार/एसकेटी जीएस एण्ड सी हरे क्रिश्ना घोष (सं. 6920891डब्ल्यू अब जेसी-727555एक्स), 05 मार्च 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाएगी)

एन. के. कश्मीरा
अवर सचिव

सं. 554, दिनांक 25 अक्टूबर 2007--थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

कर्नल से सर्जन कमोडोर के पद पर

एस कारकुन (डीआर-10309के), (79069ए), 02 जून 2007, परन्तु वैकल्पिक वरियता 21 जुलाई 2006 से दी जाती है जो कि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी।

डी. के. तनेजा
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 555, दिनांक 25 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:--

नाम	प्रयोगशाला/ स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नति ग्रेड का वेतनमान
एम. डी. उपाध्याय	मुख्या-डी.ओ.ए.	तक. अधि. 'बी'	तक. अधि. 'सी'	रु. 10,000-325- 15,200
निर्मल कुमारी	मुख्या-सी.ए.एस.	तक. अधि. 'बी'	तक. अधि. 'सी'	रु. 10,000-325- 15,200
टी. शेखर	मुख्या-डी.ओ.ए.	तक. अधि. 'सी'	तक. अधि. 'डी'	रु. 12,000-375- 16,500
एम.सी. शर्मा	मुख्या-डी.आई.सी.	तक. अधि. 'ए'	तक. अधि. 'बी'	रु. 8,000-275- 13,500
पी.के. डबराल	मुख्या-डी.बी.एफ. ए.	तक. अधि. 'सी'	तक. अधि. 'डी'	रु. 12,000-375- 16,500
मदन लाल	मुख्या-डी.बी.एफ. ए.	तक. अधि. 'बी'	तक. अधि. 'सी'	रु. 10,000-325- 15,200
प्रेमिला चावला	मुख्या-डी.एम.आई. एस.एस.	तक. अधि. 'ए'	तक. अधि. 'बी'	रु. 8,000-275- 13,500
दीमा सागर	मुख्या-सी.टी.ई.सी.	तक. अधि. 'बी'	तक. अधि. 'सी'	रु. 10,000-325- 15,200

बी.बी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-I)

वायु सेना

संख्या 556, दिनांक 25 अक्टूबर 2007--माननीय राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:--

भारतीय वायुसेना

स्क्वा. ली. से मूल विंग कमांडर के रैंक पर

ए ई (एम) शाखा

वाई राउत (22888), आर एस जयंती (22889), 19 फरवरी 2007 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

आर डी शर्मा (22890), ए एस मुखर्जी (22891), जे एस मलिक (22892), 19 फरवरी 2007 से प्रभावी

मूल फ्ला. ले. से मूल स्क्वा. ली. के रैंक पर

डी के गौड़ (26382), 06 जनवरी 2007 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

डब्ल्यू आई सिंह (26345), मनीष कुमार (26348), अनुराग शर्मा (26351), जी पी राधाकृष्णन (26354), टी एस नारायणस्वामी (26357),

रोजर्स आर एम (26346), योगेश मोहला (26349), एम एस अशोक कुमार (26352), कुणाल खन्ना (26355), गुरप्रीत एस चीमा (26347), आनन्द कांत (26350), सुनील शर्मा (26353), एम वी रामा मूर्ति (26356), 16 दिसम्बर 2006 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

एस गंगोपाध्याय (26358), एस पी सिंह (26361), पी के श्रीवास्तव (26359), संतोष कुमार एम नायर (26362), एम एस मन्हास (26360), कौशिक मुखर्जी (26363), 16 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

मूल फ्ला. ले. से मूल स्क्वा. ली. के रैंक पर

लेखा शाखा

लोकेश दत्ता (26164), 17 जून 2006 से प्रभावी

स्क्वा. ली. से मूल विंग कमांडर के रैंक पर

एफ (पी) शाखा

भुल्लर जी एस (22901), विदी एम एस (22904), अजय भारद्वाज (22905), भदौरिया यू के एस (22906), विजय यादव (22909), संजीव रंगपाल (22910), 05 मार्च 2007 से प्रभावी

बी. कानूनगो (22340), 20 फरवरी 2006 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

मनोज कुमार आर एस (22747), निकम एस के आर (22748), एस शर्मा (22750), वैष्णवी एस (22751), झा एस के (22752), अहलुवालिया ए (22753), त्यागी आर (22754), मंडोदी जे (22755), वर्मा सी बी (22756), डी'सूजा एन एस (22757), व्यास ए ए (22758), सक्सेना टी (22759), राजगुरू एस (22760), 18 दिसम्बर 2006 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

खुराना डी (22749), 18 दिसम्बर 2006 से प्रभावी

एफ पी शाखा

सागर एस (22676), अनेजा शरद (22677), सी जे सिंह (22680), शर्मा ए (22682), साहू टी आर (22683), कुमार एन (22685), ए गोयल (22686), कल्लाधन ए (22687), जॉन कूज राजू (22688), धकाते एस (22690), सक्थिवेल एस (22691), नांगिया रजत (22692), अतवाल एस एस (22693), जोशी आर (22694), सत्यप्रकाश श्रीवास्तव (22695), टोकेकर ए (22696), गौतम एम (22697), बलियां एस (22699), जौहर जी (22700), जसबीर सिंह (22702), सहरावत आर के (22703), चौधरी राजबीर सिंह (22704), राजीव गर्ग (22705), वर्मा ए डब्ल्यू (22706), सिंह ए वी (22707), रविन्द्र मान (22708), शरद पसरिचा (22709), सनामतुम थोकचम (22710), तिवारी ए एम (22712), लोकेन्द्रो एन (22714), पारिजात कश्यप (22716), अग्रवाल आर (22717), धर एन (22718), संजीव कुमार गुप्ता (22719), विकास बाली (22720), राजकुमार केसरकर (22722), बिस्वास एस एन (22723), एस सौदी (22724), महाजन एम (22725), दीक्षित पी (22726), हिमांशु गोस्वामी (22728), त्रिपाठी एस के (22729), जसवीर सिंह चात्रथ (22731), श्रीहरि वी एस (22732), घट्टी गिरीश शिषपुत्र (22733),

विनोद वी (22734), सेतलम विजय कुमार (22735), नितिन शंकर (22736), सुनील कुमार के (22737), बदोनी वी डी (22738), सिन्हा वी (22740), रौथम आर आर (22743), शर्मा एस के (22745), जेम्स जे (22746), 18 दिसम्बर 2006 से प्रभावी ।

नवीन सिंघल (22530), भारद्वाज एल (22561), सैबल रॉय (22564), 21 जून 2006 से प्रभावी ।

एम एस श्रीधर (22131), एस एस सेंगर (22151), एम वी पटेल (22152), ए कुमार (22160), ए एस अहलुवालिया (22166), 19 दिसम्बर 2005 से प्रभावी ।

मूल प्ला. जे. ले मूल स्ववा. ली. के रैंक पर

प्रशासन शाखा

सुखवन्त सिंह (26386), मंगल सिंह पंवार (26388), उमाकांत शर्मा (26387), 20 जनवरी 2007 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

सुनील कुमार (26389), 20 जनवरी 2007 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

गुर्वीर कांग (26800), दिनेश कुमार (26821), प्रवीण कुमार झा (26804), विजय कुमार (26824), आर प्रभाद (26807), विकास सैनी (26827), बी जनार्दन (26810), आर नवीन प्रसाद (26830), अजय गांधी (26814), जी राजीव कुमार (26833), सौरभ जोशी (26817), रॉन्सटन सोअंस (26837), सतिन्दर सिंह धनकर (26820), दिनेश पंत (26803), एम पी ससि कुमार (26823), आर श्रीनिवास गोर्धी (26806), बी एम शंभु (26826), एच एल गौतम (26809), नितिन कुमार अग्रवाल (26829), विनीत चौहान (26812), गडे कपिल एस (26832), सौरभ शर्मा (26816), दीपेश जैन (26836), टी के षण्वास बाबू (26819), प्रशांत पाठक (26801), सोबंजीत सिंह महाजन (26822), यू जगदीश (26805), राकेश कुमार सिंह (26825), डी राघवेंद्र कुमार (26808), रजनीश कुमार सिंह (26828), केरी लोकेश राव (26811), रंजन अरोड़ा (26831), ई षण्मुगा सुंदर (26815), के जी एस स्वामी (26834), सुनील एस हुदर (26818), एस एन संजीव (26876), 06 जनवरी 2007 से प्रभावी ।

ए ई (एल) शाखा

शुभेश बेल्लिकर (26839), संदीपन सिन्हा (26857), अभिनव (26844), संजीव कुमार खरे (26861), मोअज्जम सिद्दीकी (26847), भरत मोहन (26866), रमण जीत सिंह पाहवा (26850), नीरज अविनाश मुसाले (26871), रोहिन शर्मा (26853), विजय वर्मा (26874), प्रवीण कुमार तेवतिमा (26856), माधु आर के (27297), एन एस भरत कुमार (26859), महेश प्रताप (26842), अजीत अम्बराले (26865), रायचुर एन कौशिक (26846), अजय सिंह (26869), गौरव मांगलिक (26849), लवलीन सिंह धर्णी (26873), रजनीश सक्सेना (26855), विक्रम सिंह (26877), रोहित पञ्जाल (26858), निशांत कुलश्रेष्ठ (26841), मयंक वर्मा (26864), मुकेश कुमार सिंह (26845), अफजल सिद्दीकी (26868), दिग्विजय पटनायक (26848), आशिष रस्तोगी (26872), श्रीनिवासमूर्ति कुमार (26851), राजीव गंगाधरन (26875), पी एस कार्तिक (26854), एन रामाकृष्णन (26852), 06 जनवरी 2007 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

डी मिश्रा (26643), 06 जनवरी 07 से प्रभावी

स्ववा. ली. से मूल विंग कमांडर के रैंक पर

एफ (पी) शाखा

रमण बाबू ए (22664), श्री वास्तव पी के (22666), गांधी आर (22670), शर्मा आर (22672), 11 सितम्बर 06 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

अंकुर मुद्गल (22601), तिवारी आर (22604), अल्डरिन एच जे (22606), ए के शुक्ल (22607), चुग एच के (22608), राजीव रंजन (22609), प्रसाद पी (22612), डिडवानिया सतीश कुमार (22613), शर्मा के के (22615), 26 मार्च 2007 से प्रभावी

पुस्ती डी के (22912), सुनील कुमार चौहान (22913), विनीत हेमराज (22914), 17 मार्च 07 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

सिंह सुरेश (22761), जॉर्ज जे एम (22762), हर्षवर्धन शर्मा (22763), सुर्यभान सिंह (22764), एस जोशी (22767), आनन्द एन (22769), पुनीत वांचु (22770), पांडे एस के (22771), परांजपे एम (22772), दास एम आर (22773), हेगडे एस जी (22774), विकास वाही (22775), तिवारी ए के (22776), पंत डी (22778), के राकेश कुमार (22779), रेड्डी टी एस (22780), टी सेल्विन (22781), बाँबी मयान्दी धावेर (22782), 18 दिसम्बर 06 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

अय्यर आर आर (22783), खान जी (22784), सतीश एन (22785), सिंह एस के (22786), गयान ए के (22787), विक्रम बक्शी (22788), रविन्दर कुमार (22789), जॉइमन फिलिपोज (22790), पी के सिंह (22791), राजवर सी एस (22792), तनेजा एल के (22794), विद्याधर प्रसाद एन (22795), आनंद सुरतिभंवी (22796), 18 दिसम्बर 06 से प्रभावी

लेखा शाखा

सोहिल इरफान (22824), 17 जनवरी 07 से प्रभावी

लेखा शाखा

अरोड़ा पी के (22797), गुप्ता पी के (22798), कुकरेती एस (22799), गुप्ता आर (22800), दत्ता वी (22801), कमल कांत हीरा (22802), सेल्वा कुमार एस (22803), भानु प्रकाश टी जे (22804), रोशन के जे (22805), 18 दिसम्बर 06 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

महतो एस (22638), 21 जून 06 से प्रभावी

मेट शाखा

के पी हरीश कुमार (22004), 21 जून 06 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

ए वी जी पटनायक (22245), एस राज (22247), 19 दिसम्बर 05 से प्रभावी

<p>ए ई (एल) शाखा एस रामाचंद्रन (23090), 29 मई 06 से प्रभावी</p> <p>ए ई (एम) शाखा रमेश बाबू के (22836), 28 नवम्बर 05 से प्रभावी</p> <p>ए ई (एल) शाखा श्री निवास पी (22844), बी के दाश (22855), 28 नवम्बर 05 से प्रभावी</p> <p>मूल फ्ला. ले. से मूल स्व्वा. ली. के रैंक पर एफ (पी) शाखा</p>	<p>स्व्वा. ली. से मूल विंग कमांडर के रैंक पर</p> <p>ए ई (एम) शाखा वी सिंह (23313), ए श्रीवास्तव (23314), एस आर हजारिका (23315), पी टी लक्ष्मीनरसिम्हैया (23316), एम पटेल (23317), के पी विश्वास (23318), आर भटनागर (23319), एस ए सोमशेखर (23320), जे मैथ्यू (23321), ए के बंसल (23322), एम मीघेर (23323), ए एस कुमार (23324), आर वर्मा (23325), ए डोगरा (23326), ए त्यागी (23327), बी बालाजी (23328), डी बी रॉय (23329), एस के वी आर पोद्दार (23403), ए श्रीवास्तव (23404), पी के शुक्ला (23407), 27 नवम्बर 06 से प्रभावी</p> <p>ए ई (एल) शाखा</p>
<p>मोहित कुमार श्रीवास्तव (26277), सदाफ वक्कार आलम (26285), पारिजात सौरभ (26280), मनीष जौहर (26288), अभिजीत सरीन (26284), अभिषेक शर्मा (26291), किंशुक अग्रवाल (26287), नितिन चड्ढा (26294), गौरव सेमवाल (26290), बी सिद्धार्थ श्रीनिवास (26298), प्रवीण तिवारी (26293), अभय प्रताप सिंह (26301), चार्ल्स सौरभ साइमन (26296), श्रीजीत बालगोपाल (26306), रविन्द्र अहलावत (26300), एस अखेतो जखालु (26309), राजन भाटला (26303), सुशांत मित्रा (26313), कामरान नजीर (26308), दीपक हुडा (26330), कोणार्क गोयल (26311), साकेत वर्मा (26317), मुदित चौरसिया (26316), बलराज सिंह बाजवा (26321), विपिन विलास तकावले (26320), के सी नैथानी (26324), राहुल त्यागी (26323), मनीष नेगी (26329), अश्विन सिक्का (26326), देवराज सान्याल (26279), प्रवीण कवेरियप्पा (26332), एस सूर (26282), दीपांकर नौटियाल (26278), आकाश गुप्ता (26286), कट्य प्रवीण कुमार (26281), समित गुप्ता (26289), सुनील अग्निहोत्री (26292), अमनीत सिंह सचदेवा (26295), विश्वास जामकर (26299), पंकज कांडपाल (26302), रजनीश गोपीनाथन (26307), वी वामारदेवन संतोष (26310), लक्ष्मण सिंह चरण (26314), रिमेश खण्डेलवाल (26319), बलदेव सिंह बिष्ट (26322), अनुपम डे (26325), 16 दिसम्बर 06 से प्रभावी</p>	<p>ए ई (एल) शाखा पी डी तिवारी (23089), जे वी गंगाधर (23091), एस जयशंकर (23330), डी रॉय (23331), ए कालिया (23332), एस एस गंगाखेडकर (23335), वी संजय (23337), एच उपाध्याय (23338), एस एस किरन (23339), एस सोम सुंदरम (23340), ए के वल्लुरी (23341), ए शर्मा (23342), ए के गुप्ता (23343), वी वी मधुकर राव (23344), एस राजपूत (23345), बी वी प्रसाद (23346), एस कुमार (23348), एस के पी हेगाडे (23349), एस भट्टचार्य (23350), रथिन्द्र के आर कारनाथ (23351), एस के शाह (23352), एम श्रीनिवास (23353), एम पी पोन्नप्पा (23354), वी के वाजपेई (23355), डी काले (23356), एस वी के पिल्लै (23357), वाई पी एस चाहर (23358), जे डी कपूर (23360), एन गुप्ता (23361), एन वर्मा (23362), एस सी त्रिपाठी (23363), एस के वागले (23364), वी कुमार (23365), ए के यचारेनी (23366), बी देवदासू (23367), एस के नारायणन (23368), पी के सिंह (23369), वी पी सिंह (23370), वी एन राव (23371), डी जे लॉरेन्स (23372), एस थॉमस (23373), पी एस दत्तात्रेय (23375), आर शुक्ला (23380), वी मेदीरत्ता (23381), एन एस गुलिया (23382), एस वैकटचलम (23387), एम श्रीवास्तव (23388), जी चारी (23389), एस सी विश्वनाथ (23402), एम एम थिमैया (23408), 27 नवम्बर 06 से प्रभावी</p>
<p>संभारिकी शाखा अरविन्द कुमार शर्मा (26327), 16 दिसम्बर 06 से प्रभावी</p> <p>ए ई (एम) शाखा एस एस हिरेमथ (26412), 01 जुलाई 06 से प्रभावी</p> <p>एफ (पी) शाखा अर्णब नाथ (25834), ए विजय कुमार (25858), 18 दिसम्बर 05 से प्रभावी</p>	<p>अल्प सेवा कमीशन मूल फ्ला. ले. से मूल स्व्वा. ली. के रैंक पर</p> <p>प्रशासन शाखा श्रीमती विपंजित संधु (26365), सुश्री मंजु पाण्डे (26368), श्रीमती हर्षा जोशी (26371), श्रीमती पल्लवी पेन्डसे (26375), सुश्री सोनिया रहेजा (26366), सुश्री पुता सुधा रानी (26369), श्रीमती रितुश्री (26372), सुश्री चंदना जे (26367), श्रीमती अरुंधती कुरतडिकर (26370), सुश्री रजनी कोस्ता (26373), 16 दिसम्बर 06 से प्रभावी</p>
<p>एफ (एन) शाखा आनंद पाण्डे (26333), जयराम रमण (26336), एम आर मिश्रा (26341), अजित चौहान (26344), ज़चारिया थॉमस (26334), शैलेन्द्र घिल्लियाल (26338), बी के चक्रवर्ती (26342), अरूण कुमार (26337), सौरभ सिंह (26335), नितिन के पी भोंसले (26339), सौरव दत्ता गुप्ता (26343), 16 दिसम्बर 06 से प्रभावी</p> <p>संभारिकी शाखा अचिर्जाय साह (26340), 16 दिसम्बर 06 से प्रभावी</p>	<p>संभारिकी शाखा सुश्री रजनी गुप्ता (26377), सुश्री अंजली दीक्षित (26380), श्रीमती शांता मिश्रा (26378), सुश्री नीना भाटी (26381), श्रीमती अमृत कौर चानी (26379), 16 दिसम्बर 06 से प्रभावी</p> <p>शिक्षा शाखा श्रीमती प्रतिभा बिष्ट (26182), 16 दिसम्बर 06 से प्रभावी</p>

एम ई टी शाखा

सुश्री नीलम चौहान (25813), 16 सितम्बर 06 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

टी सी शाह (26393), 08 जनवरी 07 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

ए एस सञ्जान (26396), 08 जनवरी 07 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

श्रीमती मोना सिरौही (26364), 16 दिसम्बर 06 से प्रभावी

स्क्वा. ली. से मूल विंग कमांडर के रैंक पर

प्रशासन शाखा

श्रीमती लावण्या भारद्वाज (22807), श्रीमती हेमलता लोहानी (22808),
18 दिसम्बर 06 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

श्रीमती अनुमा आचार्य (22814), श्रीमती नीलू खत्री (22815), श्रीमती
रजनी वर्मा (22816), 18 दिसम्बर 06 से प्रभावी

लेखा शाखा

श्रीमती पारुल गोयल (22819), 18 दिसम्बर 06 से प्रभावी

एन. विजय कुमार

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3 (डी)

इनका नाम एयर कमांडर डी. के पांडे (15081), वे इ (व.) के नीचे
आयेगा

के. वी. शंकर

संयुक्त निदेश कार्मिक (अधिकारी) 2वीं

सं. 558, दिनांक 22 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में उप
सचिव श्री रजनीश कुमार ग़ोवर की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें
30 सितम्बर 2007 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं :--

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी
(तदर्थ) श्री एच. आर. नांगिया को दिनांक 01 अक्टूबर 2007 (पूर्वाह) से
सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एस. के. देव

अवर सचिव

वायु शाखा

शुद्धि

सं. 559, दिनांक 25 अक्टूबर 2007--रक्षा मंत्रालय अधिसूचना सं. 8
कमशः 100 दिनांक 07 फरवरी 07 वेज सं. 390 में प्रकाशित राजपत्र
दिनांक 24 फरवरी 07 (फाल्गुन 05, 1928) भारतीय वायु सेना के संदर्भ
में।

निम्नलिखित सुधार की जाती है :--

भारतीय वायु सेना

स्थायी कमीशन

विंग कमांडर (टइम स्केल) से विंग कमांडर के मूल रैंक में

प्रशासनिक शाखा

के मोनहरण (17751), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

के लिए

के मनोहरण (17751), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

पढ़ें।

एन. विजय कुमार

विंग कमांडर

जेडीपीओ 3 (डी)

सं. 557, दिनांक 24 अक्टूबर 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल
पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर कामोडोर के मूल रैंक में :--

पी. कनकराज (15066), व.इ. (या) 14 मई 2007

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th November 2007

No. 542, dated 22 October 2007.—The President is pleased to appoint Shri Satyajee Rajan, IAS (KL:87) on transfer from the Government of Kerala as Joint Secretary in the Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence w.e.f. 18 Sep 2007 (FN) up to 17 Sep 2012 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint the following CSS officer of the Ministry of Defence to the Grade-I of the CSS (Under Secretary) on regular basis w.e.f. 01 Jul 2001 (SI 2001), until further orders:—

Name & Designation and Date of initial appointment as US (in-situ/ad-hoc basis)

Shri S.K. Jha, 19 Jul 2001

2. The seniority of the officer included in the aforesaid Select List will be in the same order in which his name has been arranged, irrespective of actual date of his appointment to the Grade-I. The appointment of the officer included in the aforesaid Select List, to the grade of Under Secretary, on regular basis, shall be subject to the final outcome in the Civil Writ Petition No. 3269/2003, CWP No. 3912/2003 and CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

3. The above appointment is deemed to have been made effective w.e.f. 01 Jul 2001 for the purpose of approved service and for fixation of pay as Under Secretary, on a notional basis. The actual benefits, however, would be available only from the date the officer was/is so appointed to the post of Under Secretary.

4. The above officer will be entitled to exercise the benefit of option for fixation of pay under the provision of FR-22.

The President is pleased to appoint Shri T. Pratap, First PA to Raksha Mantri as Additional Private Secretary to Raksha Mantri (Shri A.K. Antony) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 06 Aug 2007 (FN) till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

Consequent on his promotion to the Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/8/2006-CS.II, dated 09 Aug 2007, the President is pleased to appoint Shri Chander Kumar, Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Ministry of Information & Broadcasting, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the afternoon of 5 September, 2007 till 31 Dec 2007 or till regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc appointment shall not confer him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS.

- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

Consequent on his promotion to the Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/8/2006-CS.II, dated 09 Aug 2007, the President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Ministry of Information & Broadcasting, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 12 September, 2007 till 31 Dec 2007 or till regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc appointment shall not confer him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

SK DEB
Under Secy.

FINANCE DIVISION

No. 543, dated 23 October 2007.—The President is pleased to appoint the following AFAs of the Ministry of Defence (Finance Division) to the Grade-I Under Secretary of CSS (US) on regular basis for the select list year 2001, 2002 w.e.f. 20 Aug 2007 in the respective year until further orders.

Select List 2001

1. Sh. T. Joseph
2. Sh. J. P. Gupta
3. Sh. R.D. Gupta

Select List 2002

1. Sh. Rakesh Bhatnagar
2. Smt. Mary B. Barla
3. Sh. B.L. Meena

R S PROACH
Dy. Financial Adviser

(ARMY BRANCH)

DIRECTORATE GENERAL OF NATIONAL CADET
CORPS

No. 544, dated 23 Oct 2007—The President is pleased to appoint Shri Prabhakar Kumar, Assistant as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in Armed Forces Headquarter Civil Services w.e.f. 11 Dec 2006 (F/N) in the pay scale of

Rs. 6,500-200-10,500/- on the basis of supplementary list of successful candidates of SOs/Stenos (Gp 'B' Gd.-I) Limited Departmental Examination-2003, notified by UPSC.

SHANKAR SINGH
Dy Chief Administrative Officer (A)

No. 545, dated 24 October 2007.—The President is pleased to make the following appointment :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt

Himmat Singh Rathore (TA-42664), Inf, 12 Apr 2006 (FN)
Rajoli Vijaya Kumar (TA-42665), Inf, 17 Apr 2006 (FN)
Dalvi Kedar Vasant (TA-42666), Inf, 25 Apr 2006 (FN)
Vishal Swatooop (TA-42667), Inf, 18 Apr 2006 (FN)
Karn Singh Rajput (TA-42669), Inf, 23 Oct 2006 (FN)
Ashwani Bhuria (TA-42670), Inf, 04 Nov 2006 (FN)
Raj Kumar Sharma (TA-42671), Inf, 21 Oct 2006 (FN)
Kanwar Preet Singh Sandhu (TA-42672), Inf, 11 Dec 2006 (FN)
Ramchandra Singh Nagarkoti (TA-42675), Inf, 27 Nov 2006 (FN)
Vikram Singh (TA-42676), Inf, 14 Nov 2006 (FN)
Gaurav Chauhan (TA-42677), Inf, 31 Oct 2006 (AN)
Chavan Prithviraj Sarjerao (TA-42678), Inf, 01 Feb 2007 (FN)
Manmeet Singh (TA-42679), Inf, 06 Feb 2007 (FN)

N KALIAPPAN
Under Secy.

No. 546, dated 25 Oct 2007.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

(SPECIAL COMMISSION)

The undermentioned 12 NCOs are granted Special Commission in the Arm/Service as shown against their name in the rank of Lt under AI 5/97 with effect from 09 Dec 2006 as per inter-seniority given below :—

Name, Army No., Parent Arm/Service, Sco No., Arm/Service Allotted

Rajesh Chand, (9512738A), AEC, (SC-00510F), AAD
Roshan Singh, (13754037F), Inf, (SC-00511K), Arty

Arvind Chatteria, (3991686W), Inf, (SC-00512M), Arty
D Rajendra Prasad, (15371834F), Sigs, (SC-00513P), Arty
U Ajith Kumar, (14615395X), EME, (SC-00514X), AAD
Kailash Chandra Arya, (15115850H), Arty (SC-00515A), Arty
Manindra Kumar Goswami, (9095901H), Inf, (SC-00516H), Arty
Onkar Singh, (15396733Y), Sigs, (SC-00517L), Arty
Kaushal Kishor Tripathi, (6934099P), AOC, (SC-00518N), Arty
Ravi S, (15311590P), Engrs (MEG), (SC-00519W), Arty
G Alaguraju, (14918032X), Mech Inf (SC-00520L), Arty
Chandra Shekar R, (14620345W), EME, (SC-00521N), AAD
CHANDER SHEIKHAR
Lt Col
AMS-8B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 547, Dated 25th October 2007.—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individuals to be temporary Scientists 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500 :—

Name, Estt and Date of Apptt

Shri Gurdeep Singh, ADRDE, Agra, 14 Apr 2005
Shri Armit Kumar, ADRDE, Agra, 22 Sep 2005
Shri Ajit Kumar, ADRDE, Agra, 22 Sep 2005
Shri Rakesh Ravidas, ARDE, Pune, 6 Sep 2004
Shri S Premkumar, ARDE, Pune, 22 Jun 2005
Shri Tharigonda Vijaya Lakshmi, ASL, Hyderabad, 21 Aug 2002
Shri Shrikant D Ghogale, ASL, Hyderabad, 28 Aug 2003
Shri Ashwin Chandar OR, ASL, Hyderabad, 12 Apr 2004
Shri Anurag Kumar Tewari, CCE (R &D), New Delhi, 06 Mar 2003
Shri Neeraj Kumar Patel, DEAL, Dehradun, 12 Apr 2004
Shri Shailendra Kumar Gautam, DEAL, Dehradun 14 Apr 2005

Shri Jasvinder Singh, DEAL, Dehradun, 14 Apr 2005
 Shri Dinesh Dwivedi, DEAL, Dehradun, 14 Apr 2005
 Shri Amit Agrawal, DEAL, Dehradun, 14 Apr 2005
 Ms Poonam Bhaskar, DEAL, Dehradun, 22 Sep 2005
 Shri Manvendra Sharma, DL, Jodhpur, 14 Apr 2005
 Ms Sandhya Songara, DL, Jodhpur, 10 Aug 2005
 Shri Gautam Kumar, DLRL, Hyderabad, 22 Sep 2005
 Shri Uma Maheswara Rao Meesala, DLRL, Hyderabad, 14 Apr 2005
 Shri Shailendra Kumar Verma, DRDE, Gawalior, 23 Mar 2005
 Shri Pravin Kumar Chaudhary, DRDL, Hyderabad, 06 Mar 2003
 Shri Ashok Naglot, DRL, Tezpur (Assam), 22 Aug 2005
 Shri Sunil C Jaiswal, HEMRL, Pune, 06 Mar 2003
 Shri Sitakanta Behera, HEMRL, Pune, 28 Aug 2003
 Ms Meshram Darshana N, HEMRL, Pune, 12 Apr 2004
 Shri Naresh Kumar, HEMRL, Pune, 14 Apr 2005
 Shri Mrinal Ghosh, HEMRL, Pune, 06 June 2005
 Shri Surinder Kumar, HEMRL, Pune, 13 Jun 2005
 Shri Abhijit Dey, HEMRL, Pune, 14 Jun 2005
 Shri Sharwan Kumar Tiwari, INS, Shivaji, 26 May 2005
 Shri G Prathap Kumar, INS, Shivaji, 22 Aug 2005
 Shri Vishal Bhushan, IRDE, Dehradun, 11 Nov 2005
 Shri Sanjit Kumar Saha, ITR, Balasore, 14 Apr 2005
 Shri Rajesh Kumar Meena, LASTEC, Delhi, 14 Apr 2005
 Shri Pankaj Raj, MSC, Pune, 14 Apr 2005
 Shri Anil Kumar K, NPOL, Kochi, 11 Mar 2005
 Shri Sijomon PJ, NPOL, Kochi, 14 Apr 2005
 Shri Bhartwaja Srinivasan V, NSTL, Visakhapatnam, 05 Jan 2004
 Shri Sunil Chauhan, R&DE (E), Pune 22 Aug 2005
 Shri Avinash Shrikantrao Hood, R&DE (E), Pune 06 Mar 2003
 Shri Bimal Gautam, R&DE(E), Pune, 14 Apr 2005
 Shri Vishal Veer Singh R&DE(E), Pune, 14 Apr 2005
 Shri Inamdar Amol Prakashrao, R&DE(E), Pune, 14 Apr 2005

Having qualified in the Limited Departmental Examination 2003 held in terms of Rule 8-1(a) of the DRDS Rules, 1979, Smt. K. Yavana Rani, STA 'C' CVRDE, Chennai to be

Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service at LRDE, Bangalore on probation for a period of two years with effect from 13 May 2005 in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-.

P SARATH
 Jt. Dir (Pers)

AIR BRANCH

No. 548, Date 25 Oct 2007.—The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned officers wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

EX-FLT CDTS To be FG Offr

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Pukhraj Chaturvedi (29265), wef 15 Dec 2006.

The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Wings (On Probation) i.e. 18 Jun 2005.

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex-Flight Cadets To be Flying Officers

Fg Offr Abhishek Raina (28452), Jaideep Singh R Bindra (28456), and Mudda Ram Kamal (28482), wef 18 Jun 2005.

The President is pleased to grant Branch Commission to the undermentioned officer in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against his name under the provisions of AFI 1/91 a/a by Corrigendum 04/02.

EX-AIRMAN To be FLYING OFFICER

(WITH TWO YEARS OF ANTE DATE FOR THE PURPOSE OF PAY ONLY WEF 13 JAN 2004)

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

Fg Offr Dwevedi Rajesh Kumar (28843), and Thoppil Kuttappan Raju (28844), wef 13 Jan 2006

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)

Fg Offr Ajmer Singh (28845), Virendra Kumar Tiwari (28846), Lal Sharma (28847), Ramesh Kumar Tiwari (28848), Rawat Virjendra Singh (28849) and Singh Sanjeeva Kumar (28850), wef 13 Jan 2006.

N VIJAY KUMAR
 Wg Cdr.
 JDPO-3(D)

No. 549, dated 22 October 2007.—The President is pleased to extend the tenure of Shri Y M Dixit, Contract Purchase Officer, Deptt. of Defence Production, Ministry of Defence for a period of one year from 11 Oct 2007 to 10 Oct 2008.

S.K. DEB
Under Secy.

No. 550, dated 22nd Oct 2007.—Consequent on being approved for lateral transfer as Director, Planning Commission, the services of Smt. Namita Mehrotra, IRAS (91), Director in the Ministry of Defence are placed at the disposal of the Planning Commission w.e.f. 14 Sep 2007 (AN), for the balance period of her tenure i.e. upto 15 Nov 2011. Her tenure on central deputation commenced w.e.f. 16 Nov 2006 (FN).

S. K. DEB
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 551, dated 23rd Oct 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Infantry

The Sikh Regiment

To be Subedar Major

Sub Lakhwinder Singh (JC-498270W), 05 Oct 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Jasvir Singh (JC-498528Y), 10 Jul 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances).

Sub Amrik Singh (JC-498478Y), 01 Jul 2007

To be Subedars

Nb Sub Palwinder Singh (JC-499327M), 18 May 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gurchait Singh (JC-499359P), 30 Apr 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 31 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Amarjit Singh (JC-499363X), 15 May 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Harbans Singh (JC-499209Y), 23 Jul 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Clerk

Nb Sub/Clk Rajender Singh (JC-499258F), 01 May 2007

Nb Sub/Clk Devi Singh (JC-499287W), 21 Jul 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Major

Sub Bhajan Singh (JC-498391X), 01 Jul 2007

To be Subedars

Nb Sub Jagrup Singh (JC-499394X), 20 Jun 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kulwinder Singh (JC-499347A), 16 Jun 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 22 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sukhpal Singh (JC-499372Y), 20 Jun 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Nachhatar Singh (JC-499401H), 11 Jul 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 23 May 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gurmit Singh (JC-499426P), 11 Jul 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 25 May 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Beant Singh (JC-499408M), 05 Jul 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-499439M), 05 Jul 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jasbir Singh (JC-499412P), 17 Jul 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 04 Jun 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Nirmal Singh (JC-499246M), 14 Jun 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hukam Singh (JC-499357K), 04 May 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gawa Singh (JC-499400A), 20 Apr 2007

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jaspal Singh (JC-499406F), 20 Apr 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hazura Singh (JC-499322N), 04 May 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gurmel Singh (JC-499318L), 17 May 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balbir Singh (JC-499346X), 08 Apr 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-499362P), 10 Apr 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sukhminder Singh (JC-499365H), 01 May 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jagtar Singh (JC-499368W), 10 Apr 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mewa Singh (JC-499369Y), 07 Apr 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balkar Singh (JC-499398N), 09 May 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dev Singh (JC-499384N), 02 Jun 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Naranjan Singh (JC-499379H), 26 May 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 22 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rishpal Singh (JC-499323W), 08 Jun 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Nirmal Singh (JC-499465N), 16 May 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gurjant Singh (JC-499466W), 12 May 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Major

Sub Dhian Singh (JC-498153L), 01 Mar 2007

Sub Budh Singh (JC-498334W), 01 Apr 2007

To be Subedars

Nb Sub Kuldip Singh (JC-499227F), 28 Mar 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Satnam Singh (JC-499228K), 28 Mar 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Tarlok Singh (JC-499309K), 31 Mar 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 30 Nov 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balwinder Singh (JC-499350A), 03 Mar 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jagir Singh (JC-499307Y), 29 Mar 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rattan Singh (JC-499329X), 20 Mar 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kapoor Singh (JC-499299L), 16 Apr 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub BS Balram Singh (JC-499390F), 05 Apr 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jaswant Singh (JC-499424K), 01 Apr 2007

Nb Sub Harjit Singh (JC-499377X), 04 Apr 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-499404W), 02 Apr 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gurtej Singh (JC-499393P), 07 May 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Nirvail Singh (JC-499409P), 01 Apr 2007

Nb Sub Atma Singh (JC-499407K), 01 Apr 2007

Nb Sub Fauja Singh (JC-499378A), 03 May 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 12 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Major Singh (JC-499457P), 15 May 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 20 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Pritpal Singh (JC-499371H), 01 May 2007

Nb Sub Balvinder Singh (JC-499403N), 04 May 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub/Clk Brijendra Singh Tomar (JC-499230F), 01 Apr 2007

Nb Sub/Clk Satyavir (JC-499254L), 07 May 2007*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances).

THE SIKHLI

To be Subedar (GD)

Nb Sub Gurmel Singh (JC-509012Y), 01 Jun 2006

Nb Sub Gurnam Singh (JC-509071L), 16 Jul 2006

Nb Sub Bachittar Singh (JC-508865K), 11 Aug 2006

Nb Sub Bikramjit Singh (JC-509154W), 10 Oct 2006

Nb Sub Rajpal Singh (JC-509155Y), 02 Nov 2006

Nb Sub Inderjit Singh (JC-509085L), 07 Dec 2006

Nb Sub Balaur Singh (JC-509074Y), 26 Dec 2006

Nb Sub Jaspal Singh (JC-509076K), 26 Dec 2006

Nb Sub Karnail Singh (JC-509009Y), 01 Feb 2007

Nb Sub Puran Singh (JC-509175M), 01 Feb 2007

Nb Sub Avtar Singh (JC-508934P), 01 Feb 2007

Nb Sub Surjit Singh (JC-508876W), 06 Feb 2007

Nb Sub Harmail Singh (JC-508877Y), 06 Feb 2007

Nb Sub Bhajan Singh (JC-509011W), 01 Mar 2007

Nb Sub Balwinder Singh (JC-509100P), 01 Mar 2007

Nb Sub Surat Singh (JC-509099L), 01 Mar 2007

Nb Sub Jagrup Singh (JC-509174K), 01 Mar 2007

Nb Sub Sarup Singh (JC-509197L), 01 Mar 2007

Nb Sub Atrna Singh (JC-509222Y), 01 Mar 2007

Nb Sub Som Singh (JC-508922A), 01 Apr 2007

Nb Sub Pal Singh (JC-509223F), 01 Apr 2007

Nb Sub Haljit Singh (JC-509201H), 01 Apr 2007

Nb Sub Kuldip Singh (JC-509211M), 01 Apr 2007

Nb Sub Balvir Singh (JC-508970A), 01 May 2007

Nb Sub Haljinder Singh (JC-508899X), 06 May 2007

THE RAJPUT REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Maj Amar Singh Chauhan (JC-478637K), 06 May 2007

Sub Maj Om Parkash Singh (JC-478558P), 05 Jun 2007

To be Subedars

Sub Shabbir Ahmed (JC-479253F), 01 Jan 2007

Sub Man Mohan Singh (JC-479465M), 01 Jan 2007

Sub Madhu Sudan Mondal (JC-479493Y), 01 Feb 2007

Sub Amanullah Khan (JC-479494F), 01 Feb 2007

Sub Rai Singh (JC-479586N), 01 Mar 2007

Sub Om Prakash (JC-479401F), 01 Apr 2007

Sub Man Bahadur Singh (JC-479408L), 01 Apr 2007

Sub Rajendra Singh Rajput (JC-479421P), 01 Apr 2007

Sub Raj Narayan Singh (JC-479423A), 01 Apr 2007

Sub Provash Chandra Das (JC-479507N), 01 Apr 2007

Sub Dharam Pal (JC-479561F), 01 Apr 2007

Sub Sukh Bir Singh (JC-479571L), 01 Apr 2007

Sub Hansi Ram (JC-479424H), 01 May 2007

Sub Bir Singh (JC-479566A), 01 May 2007

Sub Ram Mehar (JC-479489W), 11 May 2007

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Nimgire Arun Maruti (JC-412109A), 25 Apr 2007

To be Sub

Nb Sub Arjun Singh (JC-412698F), 01 Jun 2007

Nb Sub Govind Singh (JC-412692A), 01 Jun 2007

Nb Sub Digar Singh (JC-412549N), 01 Jul 2007

Nb Sub Sat Pal Singh (JC-412713L), 01 Jul 2007

Nb Sub Uttam Singh (JC-412803M), 01 Jul 2007

Nb Sub Deepak Kumar (JC-412873L), 01 Jul 2007

Nb Sub Vijai Singh (JC-412875W), 01 Jul 2007

Nb Sub Ran Singh Bhambu (JC-412810H), 01 Jul 2007

Nb Sub Jagdish Prasad Jat (JC-412815F), 01 Jul 2007

Nb Sub Satweer Singh (JC-412816K), 01 Jul 2007

Nb Sub Chintamani Chapagai (JC-412762N), 01 Aug 2007

Nb Sub Inder Paul Vidyarthi (JC-412736N), 01 Aug 2007

Nb Sub Jai Bahadur (JC-412737P), 01 Aug 2007

To be Sub (Clk)

Nb Sub/Clk Dharam Singh (JC-412859Y), 01 Jun 2007

Nb Sub/Clk Satya Pal Singh Phogat (JC-412854A), 01 Jun 2007

Nb Sub/Clk Puran Singh Gailakoti (JC-412855N), 01 Jul 2007

Nb Sub/Clk Avtar Singh (JC-412903X), 01 Aug 2007

To be Sub (Musn)

Nb Sub/Musn Ram Singh Katroli (JC-412739A), 01 Sep 2006

To be Sub

Nb Sub Rajender Prasad (JC-412566N), 01 Apr 2002

Nb Sub Mahavir Singh (JC-412680L), 01 Mar 2007

Nb Sub Shri Kishan (JC-412741X), 01 Mar 2007

Nb Sub Budh Singh (JC-412792L), 01 Mar 2007

Nb Sub Magan Singh (JC-412704K), 01 Mar 2007

Nb Sub Mukesh Kumar (JC-412772X), 01 Apr 2007

Nb Sub Banwari Lal (JC-412790A), 01 Apr 2007

Nb Sub Ram Rattan (JC-412791H), 01 Apr 2007

Nb Sub Pradeepan PC (JC-412678N), 01 Apr 2007

Nb Sub Gawade Popat baji Rao (JC-412697Y), 01 Apr 2007

Nb Sub Yudhbir Singh Yadav, SM (JC-412716Y), 01 Apr 2007

Nb Sub Jai Ram Singh (JC-412743H), 01 Apr 2007

Nb Sub Lalit Narayan Singh (JC-412749K), 29 Apr 2007

Nb Sub Gyanendra Kumar (JC-412771P), 01 May 2007

Nb Sub Harish Chand (JC-412767M), 01 May 2007

Nb Sub Soban Singh Rawat (JC-412533H), 01 May 2007

Nb Sub Rumel Singh (JC-412679W), 01 May 2007

Nb Sub Ramesh Kumar Thakur (JC-412675A), 01 May 2007

Nb Sub Jasmer Singh (JC-412799P), 09 May 2007

Nb Sub Vinod Singh (JC-412800Y), 09 May 2007

To be Sub (Clk)

Nb Sub/Clk Pawan Kumar Saini (JC-412811L), 01 Apr 2007

Nb Sub/Clk Kailash Chandra (JC-412808L), 01 Apr 2007

JAK LI

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Mohd Amin Mir (JC-592411A), 02 May 2007

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2006).

Sub Prem Singh (JC-592197F), 01 May 2007

Sub Bishan Lal (JC-592628H), 01 Jun 2007

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 02 Jun 2007).

THE MADRAS REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Yogalingam (JC-439252W), 01 Apr 2007

Nb Sub Ganesan S (JC-439289X), 01 May 2007

Nb Sub Sadanandan P (JC-439291P), 11 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub P Muraleedharan (JC-439487H), 01 May 2007

Nb Sub Jeethu Kumar G (JC-439479K), 19 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Shamshudeen M (JC-439494Y), 17 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Hussain Kunju J (JC-439495F), 08 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allces)

To be Subedar Major

Sub Rajan M (JC-438271P), 01 May 2007

Sub T Vasudevan (JC-438193H), 02 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allces)

Sub Shaik Khadar Vali (JC-438319X), 20 May 2007

Sub Korikana Lakshum Naidu (JC-438405H), 01 Jun 2007

Sub Balakrishnan NP (JC-438309N), 01 Jun 2007

Sub Krishna Kumar PV (JC-438458F), 01 Jun 2007

To be Subedar Major (Clerk)

Sub/Clk Sathian KK (JC-438487W), 01 May 2007

To be Subedar Major (Musician)

Sub/Musn Packiriswami P (JC-438910L), 01 Feb 2007

To be Sub

Nb Sub Shaik Subhan (JC-439203N), 05 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Ravi A (JC-439248N), 01 Apr 2007

Nb Sub M Rama Mohan Rao (JC-439346N), 07 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Minine Rodrigues (JC-439421M), 12 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Ashok Kumar SR (JC-439502M), 03 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 29 Apr 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub KJ Sabastain Joseph (JC-439451K), 02 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Nandhan C (JC-439468X), 23 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allces)

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Krishan Lal Verma (JC-519329F), 05 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 May 2007 without effect on pay and allces)

Sub Milap Chand Barwal (JC-519425W), 01 Jun 2007

Sub Jagdish Chand (JC-519228L), 02 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jul 2007 without effect on pay and allces)

To be Sub Maj/Clk

Sub/Clk Raj Mal Thakur (JC-518938Y), 01 May 2007

To be Sub

Sub Desh Raj (JC-519983X), 11 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jun 2006 without effect on pay and allces)

Sub Balvir Singh (JC-519985H), 19 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Feb 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Rashpal Singh (JC-520049A), 01 Feb 2007

Nb Sub Ramesh Chand (JC-520053H), 29 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 28 Feb 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Parshotam Lal Sharma (JC-519967A), 12 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Bakhtawar Singh (JC-519970A), 24 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Parkash Chand Bains (JC-519995M), 06 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Dilbag Singh (JC-520004A), 25 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 21 Mar 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Narinder Singh (JC-519841A), 01 Apr 2007

Nb Sub Suresh Kumar (JC-519991W), 01 Apr 2007

Nb Sub Madan Lal (JC-520021A), 14 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Kuldeep Singh Rana (JC-520082X), 19 Jul 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Amin Chand Sharma (JC-519994K), 01 Apr 2007

Nb Sub Madan Mohan (JC-520018A), 05 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Parhad Singh (JC-520005H), 01 Apr 2007

Nb Sub Hans Raj (JC-520023L), 01 Apr 2007

Nb Sub Subhash Singh (JC-520102A), 01 Apr 2007

Nb Sub Joginder Singh (JC-520120H), 28 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Uttam Singh (JC-520159P), 01 Apr 2007

Nb Sub Balbir Singh (JC-520101X), 01 Apr 2007

Nb Sub Subhash Chand (JC-520051X), 08 Jun 2007

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 05 Apr 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Amrit Lal (JC-519843H), 01 May 2007

Nb Sub Ram Lal (JC-519854X), 01 May 2007

Nb Sub Des Raj (JC-519879K), 13 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Narendra Prakash (JC-519880Y), 02 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Surender Kumar (JC-519997X), 08 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Roop Lal (JC-519998A), 08 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2007 without effect on pay and allces)

Nb Sub Hardeep Singh (JC-520093K), 03 Jun 2007

To be Sub (Clk)

Nb Sub/Clk Naresh Chand Sharma (JC-520029M), 01 May 2007

JAK RIF

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Nirmal Singh Jamwal (JC-579621A), Jak Rif, 01 Oct 2006

Nb Sub Shyam Singh (JC-579622H), Jak Rif, 01 Oct 2006

Nb Sub Sham Lal (JC-580158W), Jak Rif, 01 Oct 2006

Nb Sub MD Badruddin (JC-579938P), Jak Rif, 01 Nov 2006

Nb Sub Vijay Kumar (JC-580062N), Jak Rif, 01 Nov 2006

Nb Sub Ramesh Moktan (JC-580077M), Jak Rif, 01 Nov 2006

Nb Sub Subhash Chander (JC-580086P), Jak Rif, 01 Feb 2007

Nb Sub Jai Gopal (JC-580075L), Jak Rif, 01 Feb 2007

Nb Sub Parkash Chand (JC-579786Y), Jak Rif, 01 Mar 2007

Nb Sub Nerinder Chand Katoch (JC-579898Y), Jak Rif, 01 Mar 2007

Nb Sub Yudhvir Singh (JC-579978W), Jak Rif, 01 Mar 2007

Nb Sub Jai Singh (JC-579870Y), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Ranjit Singh (JC-579921F), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Naveen Kumar (JC-579944H), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Om Parkash (JC-579996Y), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Kartar Singh (JC-580010X), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Mohinder Singh (JC-580011A), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Kamaljit Singh (JC-580043H), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Balkar Singh (JC-580136X), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Balbir Singh (JC-580137A), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Vijay Kumar (JC-579828A), Jak Rif, 01 May 2007

Nb Sub Bachan Dass (JC-580118P), Jak Rif, 01 May 2007

Nb Sub Madhu Sudan (JC-579897W), Jak Rif, 01 Jun 2007

Nb Sub Ganesh Bahadur Thapa (JC-579927H), Jak Rif, 01 Jun 2007

Nb Sub Onkar Chand (JC-579986F), Jak Rif, 01 Jun 2007

Nb Sub Vijay Kumar Bhandari (JC-579988A), Jak Rif, 01 Jun 2007

Nb Sub Guran Dass (JC-579995W), Jak Rif, 01 Jun 2007

Nb Sub Krishna Bahadur Rana (JC-580001W), Jak Rif, 01 Jun 2007

Nb Sub Vinod Kumar (JC-580020F), Jak Rif, 01 Jun 2007

Nb Sub Raghunath Singh (JC-580058L), Jak Rif, 01 Jun 2007

Nb Sub Madan Lal Banyal (JC-580123A), Jak Rif, 01 Jun 2007

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-579852W), Jak Rif, 01 Jul 2007

Nb Sub Ramesh Chand (JC-579866W), Jak Rif, 01 Jul 2007

Nb Sub Hem Raj (JC-579896N), Jak Rif, 01 Jul 2007

Nb Sub Rabinder Nath (JC-580024X), Jak Rif, 01 Jul 2007

Nb Sub Hoshiar Singh (JC-580025A), Jak Rif, 01 Jul 2007

Nb Sub Subhash Chand (JC-579974A), Jak Rif, 01 Aug 2007

Nb Sub Balak Ram (JC-580018K), Jak Rif, 01 Aug 2007

To be Substantive Sub Clk (GD)

Nb Sub Clk Birendra Singh (JC-580064Y), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Clk Dewan Chand (JC-579817N), Jak Rif, 01 May 2007

Nb Sub Clk Sardari Lal (JC-579818W), Jak Rif, 01 Jul 2007

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub Madan Lal (JC-579060W), Jak Rif, 01 Mar 2007

Sub Ravi Dutt (JC-579114M), Jak Rif, 01 Jun 2007

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Shashi Paul (JC-579825M), Jak Rif, 01 Sep 2005

Nb Sub Tilak Raj (JC-579826P), Jak Rif, 01 Nov 2005

Nb Sub Respal Chand Bhagat (JC-579891P), Jak Rif, 19 Jan 2006

Nb Sub Randhir Singh (JC-580007X), Jak Rif, 01 Oct 2006

Nb Sub Baldev Singh (JC-580015W), Jak Rif, 19 Nov 2006

Nb Sub Ashok Kumar (JC-579928L), Jak Rif, 01 Jan 2007

Nb Sub Mohinder Singh (JC-579939X), Jak Rif, 01 Jan 2007

Nb Sub Ashok Kumar (JC-579744M), Jak Rif, 01 Feb 2007

Nb Sub Yograj Singh (JC-579792M), Jak Rif, 01 Feb 2007

Nb Sub Balwinder Singh (JC-579872K), Jak Rif, 01 Feb 2007

Nb Sub Kabul Singh (JC-579776P), Jak Rif, 01 Feb 2007

Nb Sub Kulbir Singh (JC-579873M), Jak Rif, 01 Feb 2007
 Nb Sub Ranjit Singh (JC-579892X), Jak Rif, 01 Feb 2007
 Nb Sub Om Dutt (JC-579907P), Jak Rif, 25 Feb 2007
 Nb Sub Narinder Singh (JC-579784N), Jak Rif, 01 Mar 2007
 Nb Sub Romesh Lal (JC-579799W), Jak Rif, 01 Mar 2007
 Nb Sub Mohan Lal (JC-579845A), Jak Rif, 01 Mar 2007
 Nb Sub Birender Singh (JC-579979X), Jak Rif, 01 Mar 2007
 Nb Sub Prem Chand (JC-579991A), Jak Rif, 01 Mar 2007
 Nb Sub Sudarshan Kumar (JC-579741Y), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Parveen Kumar Katal (JC-579773F), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Ramesh Kumar (JC-579782H), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Kamal Kumar Rana (JC-579797L), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Darshan Kumar (JC-579806F), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Darshan Singh (JC-579848N), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Harbans Lal (JC-579857P), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Sagra Singh (JC-579886K), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Hans Raj Thial (JC-579894H), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Yadu Nath (JC-579919K), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Romesh Chand Koundal (JC-579922), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Bachan Lal (JC-579932N), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Gopal Chhetri (JC-579950W), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Ravinder Singh (JC-579968M), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Sher Singh (JC-579973X), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Chain Singh (JC-579985K), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Surinder Kumar (JC-579993L), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Chhabi Lal (JC-580003F), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Ravinder Kumar (JC-580017F), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Hoshiar Singh (JC-580041X), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Lekh Raj (JC-580042X), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Shiv Darshan Singh (JC-580050Y), Jak Rif, 01 Apr 2007
 Nb Sub Balbir Singh (JC-579858X), Jak Rif, 27 Apr 2007
 Nb Sub Amin Chand (JC-579814A), Jak Rif, 01 May 2007
 Nb Sub Kulwant Singh (JC-579876A), Jak Rif, 01 May 2007
 Nb Sub Rasila Ram (JC-579952F), Jak Rif, 01 May 2007

Nb Sub Nikka Ram (JC-579994N), Jak Rif, 01 May 2007
 Nb Sub Avtar Singh (JC-580000N), Jak Rif, 01 May 2007
 Nb Sub Kamaljit (JC-580022M), Jak Rif, 01 May 2007
 Nb Sub Des Raj Saklani (JC-580027L), Jak Rif, 01 May 2007
 Nb Sub Dhian Chand (JC-580038K), Jak Rif, 01 May 2007
 Nb Sub Garu Ram (JC-580092L), Jak Rif, 01 May 2007

To be Substantive Sub Clk (GD)

Nb Sub Clk Narender Kumar (JC-579677M), Jak Rif, 01 Feb 2007

Nb Sub Clk Gyan Singh Pal (JC-579709K), Jak Rif, 01 Mar 2007

Nb Sub Clk Bhagwan Singh Chaudhary (JC-579710Y), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Clk Balbir Singh (JC-579839M), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Clk Dharampal Sharma (JC-579949F), Jak Rif, 01 Apr 2007

Nb Sub Clk Ramesh Chand (JC-579816L), Jak Rif, 01 May 2007

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Liakat Ali (No. 2680151N now JC-450358H), 29 Dec 2006

(Gtd Seniority wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allces.)

Hav Mohd Sagir Ansari (No. 2677243X now JC-450359L), 29 Jun 2007

(Gtd Seniority wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allces.)

Hav Om Prakash Choudhary (No. 2685775K now JC-450360A), 01 Mar 2007

Hav Sagar Kathat (No. 2983930A now JC-450361H), 29 Mar 2007

Hav Jang Bahadur Singh (No. 4268778A now JC-450362L), 01 Apr 2007

Hav Romesh Singh (No. 2678511A now JC-450363N), 01 Apr 2007

Hav Ram Kunwar Meena (No. 2680060K now JC-450364W), 22 May 2007

(Gtd Seniority wef 03 Apr 2007 without effect on pay and allces.)

Hav Vidaya Nand (No. 2677208M now JC-450365Y), 01 May 2007

Hav Jagat Singh (No. 2679103F now JC-450366F), 01 May 2007

Hav Jagdish Prasad (No. 2680927W now JC-450367K), 01 May 2007

Hav Sunil Kumar (No. 2677989L now JC-450368M), 01 May 2007

Hav Dal Singh (No. 2680618N now JC-450369P), 01 May 2007

Hav Subhash Singh (No. 2679760L now JC-450370K), 01 May 2007

Hav Darshan Kumar (No. 2680068W now JC-450371M), 07 May 2007

Hav Dinesh Kumar, SM (No. 2680086Y now JC-450372P), 08 May 2007

Hav Ranjeet Singh (No. 2681803N now JC-450373X), 12 May 2007

To be Nb Sub

Hav Rambir Singh (No. 2678368Y now JC-450374A), 01 Jun 2007

Hav Sadik Mohd (No. 2679054K now JC-450375H), 01 Jun 2007

Hav Jit Singh (No. 2683508K now JC-450376L), 01 Jun 2007

Hav Hari Pratap Singh (No. 2677047P now JC-450377N), 01 Jun 2007

Hav Balbir Singh (No. 2680622W now JC-450378W), 01 Jun 2007

Hav Jagdev Singh Rajput (No. 2678141L now JC-450379Y), 01 Jun 2007

Hav Yashpal Singh (No. 2681929M now JC-450380N), 01 Jun 2007

Hav Jagdish Lal (No. 2678480L now JC-450381W), 01 Jun 2007

Hav Rosar Khan (No. 2676891L now JC-450382Y), 05 Jun 2007

Hav Dinesh Kumar Singh (No. 2680960N now JC-450383F), 14 Jun 2007

(Gtd seniority wef 09 Jun 2007 without effect on pay and allces)

Hav Ram Shankar (No. 2679102Y now JC-450384K), 19 Jun 2007

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Amlesh Kumar Singh (No. 2680136Y now JC-450385M), 01 Jun 2007

THE KUMAON REGIMENT

To be Substantive Subedar

Nb Sub Nandan Singh (JC-539714M), 02 Jun 2007

Nb Sub Suraj Bhan Yadav (JC-539655L), 02 Jun 2007

Nb Sub Rajender Singh Dharni (JC-539731M), 27 Jul 2007

Nb Sub Fakir Singh (JC-539715P), 20 Jul 2007

Nb Sub Sundar Singh (JC-539730K), 27 Jul 2007

THE GARHWAL RIFLES

To be Sub Maj

Sub Birendar Singh, SM (JC-528849N), 01 Dec 2006

Sub Khushal Singh (JC-528478W), 01 Feb 2007

Sub Chattar Singh (JC-529039X), 01 Apr 2007

Sub Kundan Singh (JC-528892P), 01 May 2007

Sub Pratap Singh (JC-528822W), 01 May 2007

To be Sub

Nb Sub Madan Singh (JC-529579N), 01 Jun 2006

Nb Sub Mahipal Singh (JC-529692L), 01 Sep 2006

Nb Sub Manwar Singh (JC-529695Y), 01 Dec 2006

Nb Sub Surendra Singh (JC-529607X), 01 Mar 2007

Nb Sub Shiv Singh (JC-529404N), 01 Apr 2007

Nb Sub Satashwar Prasad (JC-529600N), 01 Apr 2007

Nb Sub Prithivi Singh (JC-529643H), 01 Apr 2007

Nb Sub Chandra Singh, SM (JC-529512X), 01 Apr 2007

Nb Sub Pratap Singh Rawat (JC-529538M), 01 Apr 2007

Nb Sub Ram Singh (JC-529513A), 01 Apr 2007

Nb Sub Darwan Singh (JC-529788N), 01 Apr 2007

Nb Sub Dalbir Singh (JC-529567F), 01 Apr 2007

Nb Sub Tula Ram (JC-529553F), 01 Apr 2007

Nb Sub Pradeep Kumar (JC-529581N), 01 Apr 2007

Nb Sub Sudarshan Negi (JC-529609H), 01 Apr 2007

Nb Sub Dhani Lal (JC-529608A), 01 Apr 2007

Nb Sub Prem Singh (JC-529629W), 01 Apr 2007

Nb Sub Pravendra Singh (JC-529632N), 01 Apr 2007

Nb Sub Virender Singh (JC-529634F), 01 Apr 2007

Nb Sub Sarbeshwar Prasad (JC-529637P), 01 Apr 2007

Nb Sub Girish Chandra (JC-529656A), 01 Apr 2007

Nb Sub Anil Kumar (JC-529654P), 01 Apr 2007

Nb Sub Narendra Singh (JC-529684M), 01 Apr 2007

Nb Sub Abal Singh (JC-529670M), 01 Apr 2007

Nb Sub Brijmohan Singh (JC-529713W), 01 Apr 2007

Nb Sub Surender Singh (JC-529759Y), 01 Apr 2007

Nb Sub Ram Charan Prasad (JC-529760N), 01 Apr 2007

Nb Sub Yashodhar Singh (JC-529703M), 01 Apr 2007

Nb Sub Prem Singh (JC-529753X), 01 Apr 2007

Nb Sub Virendra Singh (JC-529770X), 01 Apr 2007

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Nb Sub

Nb Sub Narendar Singh (JC-529771A), 01 Apr 2007
 Nb Sub Rajendra Singh (JC-529772H), 01 Apr 2007
 Nb Sub Sujan Singh, SM (JC-529781K), 01 Apr 2007
 Nb Sub Narender Singh (JC-529799A), 01 Apr 2007
 Nb Sub Nathi Singh Pundir (JC-529833P), 01 Apr 2007
 Nb Sub Bijai Singh (JC-529832M), 01 Apr 2007
 Nb Sub Kushal Singh (JC-529671P), 03 Apr 2007
 Nb Sub Chandan Singh (JC-529610X), 06 Apr 2007
 Nb Sub Surender Singh (JC-529655X), 01 May 2007
 Nb Sub Sdorbir Singh (JC-529726N), 01 May 2007
 Nb Sub Yashwant Singh (JC-529672X), 01 May 2007
 Nb Sub Pancham Singh Negi (JC-529776Y), 01 May 2007
 Nb Sub Satish Chander Joshi (JC-529704P), 01 May 2007
 Nb Sub Krishna Nand (JC-529867H), 01 May 2007
 Nb Sub Yashwant Singh Rawat (JC-529380Y), 18 May 2007

To be Sub (Clk)

Nb Sub/Clk Dalvir Singh (JC-529591X), 01 Apr 2007
 Nb Sub/Clk Santosh Kumar (JC-529605M), 01 Apr 2007
 Nb Sub/Clk Tirath Singh (JC-529616Y), 01 Jun 2007

THE PUNJAB REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Harprakash Singh (JC-428450F), 01 Jun 2007

To be Sub

Nb Sub Ram Singh (JC-429676Y), 01 May 2007
 Nb Sub Rattan Chand (JC-429728K), 01 May 2007
 Nb Sub Darshan Singh (JC-429358P), 08 May 2007
 Nb Sub Suresh Kumar (JC-429631Y), 01 Jun 2007
 Nb Sub Vishwa Nath Sharma (JC-429573A), 01 Jun 2007
 Nb Sub Om Prakash (JC-429718A), 01 Jun 2007
 Nb Sub Darshan Singh (JC-429802A), 01 Jun 2007
 Nb Sub Tylak Raj (JC-429831P), 01 Jun 2007
 Nb Sub Rattan Chand Thakur (JC-429823W), 01 Jun 2007
 Nb Sub Jai Karan Malik (JC-429898N), 01 Jun 2007
 Nb Sub Jagtar Singh (JC-429955K), 01 Jun 2007

S. ASHRAF
 Under Secretary

No. 552, dated 22 October 2007.—The President is pleased to make the following promotions :—

Hav Dhanush Dhari (No. 14407814L now JC-270130K),
 13 Nov 2006/01 Jul 2006*

Hav Vinod Singh (No. 14481593Y now JC-270131M),
 01 Dec 2006/16 Aug 2006*

Hav Kashid Baban Dada (No. 14493594N now JC-270132P),
 11 Dec 2006/20 Aug 2006*

BHM Amrik Singh (No. 14375631X now JC-270133X),
 09 Nov 2006/01 Oct 2006*

Hav Mangat Singh (No. 14481755Y now JC-270134A),
 04 Nov 2006/01 Oct 2006*

Hav Mitthan Singh (No. 14487060M now JC-270135H),
 16 Jan 2007/01 Nov 2006*

BHM Gurujubelli Asiri Naidu (No. 14382433W now JC-
 270136L), 26 Dec 2006/01 Nov 2006*

Hav Singh Raj (No. 14475806L now JC-270137N), 20 Dec
 2006/01 Nov 2006*

Hav Jagat Narain Singh (No. 14492820N now JC-270138W),
 01 Nov 2006

Hav Ram Bahadur Chhetri (No. 14373823X now JC-
 270139Y), 12 Jan 2007/18 Nov 2006*

BHM Mohan Lal (No. 14478981L now JC-270140N), 13 Jan
 2007/30 Nov 2006*

RHM Balbir Singh (No. 14369794W now JC-270141W),
 10 Dec 2006/01 Dec 2006*

Hav Gian Singh (No. 14497445X now JC-270142Y), 30 Dec
 2006/01 Dec 2006*

Hav Sohan Singh (No. 14372480A now JC-270143F), 13
 Jan 2007/01 Dec 2006*

Hav Udaya Singh (No. 14381782N now JC-270144K), 01
 Jan 2007

Hav Ram Prakash (No. 14364201P now JC-270145M),
 29 Jan 2007/01 Jan 2007*

Hav Vajan Singh (No. 14382142W now JC-270146P), 18
 Feb 2007/23 May 2006*

Hav Nannaware Balu (No. 15108092N now JC-270147X),
 11 Dec 2006/20 Aug 2006*

RHM Shamlal Sharma (No. 14482665K now JC-270148A),
 09 Jan 2006/01 Nov 2006*

Hav R Saravana Kumar (No. 15114772K now JC-270149H),
 26 Dec 2006/01 Nov 2006*

Hav Baijnath Singh (No. 14365219X now JC-270150X),
 15 Feb 2007/06 Nov 2006*

Hav Sahdeo Thakur (No. 14379142L now JC-270151A),
15 Jan 2007/26 Nov 2006*

Hav Maya Dhar Panigrahi (No. 14378117A now
JC-270152H), 30 Jan 2007/01 Dec 2006*

Hav Jagdish Kumar (No. 14370616A now JC-270153L),
23 Jan 2007/28 Dec 2006*

Hav Virpal Singh (No. 14480954A now JC-270154N), 13
Jan 2007/01 Jan 2007*

BHM Hira Lal (No. 14487602L now JC-270155W), 11 Jan
2007/01 Jan 2007*

RHM Basiruddin Ansari (No. 14360058W now JC-
270156Y), 08 Feb 2007/04 Jan 2007*

Hav Satya Pal (No. 15110543F now JC-270157F), 13 Feb
2007/09 Jan 2007*

Hav Soman P (No. 14364546W now JC-270158K), 01 Feb
2007

RHM Surjeevan Singh (No. 14377953X now JC-270159M),
12 Feb 2007/01 Feb 2007*

Hav Patil Mahadeo Bhagawan (No. 14497067K now
JC-270160F), 01 Aug 2007/01 Feb 2007*

Hav Jay Pal (No. 14487895F now JC-270161K), 01 Feb 2007

Hav Karunakaran G (No. 14498344W now JC-270054H),
06 Nov 2006/31 May 2006*

Hav Pratap Singh (No. 14498948P now JC-270055L), 06
Nov 2006/01 Jun 2006*

Hav Elumalai A (No. 14369133W now JC-270056N), 24 Nov
2006/01 Aug 2006*

Hav Sheopal Singh (No. 14362838A now JC-270057W),
19 Jan 2007/16 Aug 2006*

BHM Om Prakash (No. 13885743Y now JC-270058Y),
27 Nov 2006/30 Aug 2006*

Hav Ranjit Singh (No. 14478803H now JC-270059F), 27
Nov 2006/30 Aug 2006*

Hav Balwant Singh (No. 15106947M now JC-270060W),
18 Nov 2006/01 Oct 2006*

Hav Charanjit Singh (No. 15109171P now JC-270061Y),
19 Jan 2007/01 Nov 2006*

BHM Dnyadeo Niwruiti Raut (No. 14360601K now
JC-270062F), 16 Dec 2006/01 Nov 2006*

Hav Chaudhari Bhau Shanker (No. 14384102N now
JC-270063K), 09 Jan 2007/01 Nov 2006*

Hav Dashrath Keru Khondge (No. 14488895N now
JC-270064M), 10 Jan 2007/30 Nov 2006*

Hav Sankar Panda (No. 14371704H now JC-270065P),
04 Dec 2006/30 Nov 2006*

Hav Chhotu Ram (No. 14380602N now JC-270066X),
15 Dec 2006/01 Dec 2006*

Hav Vilas Raja Ram Patil (No. 14373267M now JC-
270067A), 01 Jan 2007

Hav Charan Singh (No. 14481052X now JC-270068H),
31 Jan 2007/01 Jan 2007*

Hav Gyanvir Singh (No. 14375146K now JC-270069L),
01 Feb 2007

RHM Gunthala Venkateshwar (No. 15107159P now
JC-270070A), 12 Jan 2007/23 Jun 2006*

RHM Pyare Lal Yadav (No. 15109324N now JC-270071H),
03 Jul 2006/23 Jun 2006*

Hav Ramendra Sharma (No. 14369541F now JC-270072L),
09 Aug 2006/01 Jul 2006*

Hav Baldev Singh (No. 14389967K now JC-270073N),
08 Aug 2006/01 Aug 2006*

RHM Sivadasan K P (No. 14400281L now JC-270074W),
12 Jan 2007/26 Oct 2006*

RHM Des Raj (No. 14399452X now JC-270075Y), 16 Nov
2006/26 Oct 2006*

RHM Arvind Kumar Singh (No. 14408191Y now JC-
270076F), 02 Nov 2006/26 Oct 2006*

RHM Jagga (No. 15115652X now JC-270077K), 02 Nov
2006/26 Oct 2006*

RHM Ramdhan (No. 14411462W now JC-270078M),
02 Nov 2006/26 Oct 2006*

RHM Indra Jeet Tiwari (No. 15119335N now JC-270079P),
13 Nov 2006/26 Oct 2006*

RHM Vijay Kumar (No. 15115338K now JC-270080K),
02 Nov 2006/26 Oct 2006*

RHM Vinod Singh Tanwar (No. 15114083H now
JC-270081M), 02 Nov 2006/26 Oct 2006*

Hav Jaswinder Singh (No. 15114433K now JC-270082P),
19 Dec 2006/01 Nov 2006*

RHM Sujith MP (No. 14415664P now JC-270083X), 05 Jan
2007/01 Jan 2007*

Hav Rajpal (No. 14394127N now JC-270194P), 17 Feb 2007/
21 Aug 2006*

RHM Mane Babu Laxman (No. 14498748Y now JC-
270195X), 01 Mar 2007/01 Oct 2006*

Hav Ashok Kumar (No. 14485737N now JC-270196A),
12 Feb 2007/01 Nov 2006*

Hav Pachayappan R (No. 15103474N now JC-270197H),
10 Feb 2007/01 Nov 2006*

Hav Probin Ch Bora (No. 14487680H now JC-270198L),
18 Feb 2007/13 Nov 2006*

Hav Ranjit Singh (No. 14488482K now JC-270199N),
18 Feb 2007/13 Nov 2006*

Hav Om Prakash Sukla (No. 14377821K now JC-270200X),
07 Feb 2007/20 Nov 2006*

Hav Ram Lal (No. 14383886N now JC-270201A), 19 Feb
2006/30 Nov 2006*

Hav Prakash Chand Pant (No. 14499861A now JC-270202H),
04 Feb 2007/01 Dec 2006*

Hav MD Khajamohinuddin (No. 15109981X now JC-
270203L), 09 Feb 2007/22 Dec 2007*

Hav Jogi Nageswara Rao (No. 14497097F now JC-270204N),
10 Feb 2007/01 Jan 2007*

Hav Gajendra Singh Rawat (No. 15103324X now JC-
270205W), 12 Feb 2007/01 Jan 2007*

Hav Sri Nopsafi Khan (No. 14408057N now JC-270206Y),
27 Feb 2007/01 Jan 2007*

RHM Vijay Pal (No. 14481808M now JC-270207F), 02 Jan
2007

Hav Anil Kumar Ghosh (No. 14476029A now JC-270208K),
01 Mar 2007

BHM Radhakrishnan PN (No. 14479028H now JC-
270209M), 03 Mar 2007/01 Mar 2007*

Hav Kamla Kant Singh (No. 15107391A now JC-270162M),
22 Jan 2007/25 Jan 2006*

Hav David (No. 14378073N now JC-270163P), 01 Aug 2006/
01 Jun 2006*

RHM Jai Prakash Rai (No. 14485186N now JC-270164X),
21 Dec 2006/01 Oct 2006*

Hav Gautam Mishra (No. 14485247A now JC-270165A),
21 Dec 2006/01 Oct 2006*

Hav Uma Shankar Tiwari (No. 14380614H now JC-270166H),
19 Nov 2006/31 Aug 2006*

Hav Kashmir Singh (No. 14490931M now JC-270167L),
21 Dec 2006/01 Nov 2006*

BHM Roshan Lal (No. 14375787W now JC-270168N),
11 Jan 2007/30 Nov 2006*

BHM Dev Karan (No. 14384286X now JC-270169W),
15 Feb 2007/01 Dec 2006*

Hav Kumarswami Hiremath (No. 14374876H now
JC-270170L), 21 Feb 2007/21 Dec 2006*

Hav Abhay Ram Sharma (No. 14371101M now JC-
270171N), 10 Feb 2007/01 Jan 2007*

RHM Jaswinder Singh (No. 14375723L now JC-270172W),
23 Jan 2007/01 Jan 2007*

Hav Brahma Shanker Yadav (No. 15115026N now JC-
270173Y), 15 Feb 2007/01 Jan 2007*

Hav Lakhani Singh (No. 14388941H now JC-270174F),
27 Jan 2007/01 Jan 2007*

Hav Praladram Kumawat (No. 14495811X now JC-
270175K), 15 Feb 2007/14 Jan 2007*

BHM Patil Krishnat Yashwant (No. 14483724X now
JC-270176M), 15 Feb 2007/01 Feb 2007*

Hav Hukam Singh (No. 14499074Y now JC-270177P),
15 Feb 2007/01 Feb 2007*

Hav Satnam Singh (No. 14385675K now JC-270178X),
22 Feb 2007/14 May 2006*

Hav Pooran Singh (No. 14366831N now JC-270179A),
23 Jan 2007/01 Nov 2006*

Hav Vadiwal (No. 15101285L now JC-270180P), 01 Mar
2007/06 Nov 2006*

Hav Swaran Singh (No. 14372272L now JC-270181X),
21 Feb 2007/30 Nov 2006*

Hav Sundra Pal (No. 15119073H now JC-270182A), 03 Feb
2007/30 Nov 2006*

Hav Sukhwinder Singh (No. 15110733N now JC-270183H),
21 Feb 2007/30 Nov 2006*

Hav Dalbir Singh (No. 14394000L now JC-270184L), 02 Feb
2007/01 Dec 2006*

Hav Rajen Baruah (No. 14373030P now JC-270185N),
21 Feb 2007/03 Dec 2006*

Hav Yesbir Singh Tomar (No. 14482905W now JC-
270186W), 22 Jan 2007/19 Dec 2006*

BHM Harbhajan Singh (No. 14484423A now JC-270187Y),
11 Feb 2007/23 Dec 2006*

Hav Shantaram Ganpati Sakpal (No. 14492276X now JC-
270188F), 10 Feb 2007/01 Jan 2007*

Hav Hira Singh Gujar (No. 13885965N now JC-270189K),
12 Feb 2007/01 Jan 2007*

Hav Jay Prakash Singh (No. 14363932W now JC-270190Y),
12 Feb 2007/01 Jan 2007*

Hav Kamlesh Kumar (No. 14484825X now JC-270191F),
05 Feb 2007/01 Feb 2007*

Hav Balbir Singh (No. 14489246P now JC-270192K), 06
Mar 2007/01 Feb 2007*

Hav Viswa Kumar K (No. 14380442Y now JC-270193M),
03 Mar 2007/01 Mar 2007*

*(Gtd Seniority wef)

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

To be Nb Ris

CERTIFICATE

Promotions of the following NCOs to Nb Ris:—

Dfr/DSR Suresh Kumar (No. 7239078M now JC-797416L),
01 Mar 2007

Dfr/Clk Vijay Shyam (No. 7239262X now JC-797417N),
01 Apr 2007

Dfr/RDR Ram Laxman Mali (No. 7240100Y now JC-797418W), 01 Apr 2007

Dfr/RDR Munesh Kumar (No. 7239731P now JC-797419Y),
01 May 2007

Dfr/RDR Choona Ram Choudhary (No. 7239465F now JC-797420N), 01 May 2007

Dfr/RDR K Damodar (No. 7239510H now JC-797421W),
01 May 2007

Dfr/RDR Sanjeev Kumar (No. 7239625W now JC-797422Y),
01 May 2007

Dfr/RDR Kshudi Ram Singh (No. 7239663M now JC-797423F), 01 May 2007

Dfr/DSR Idal Saikh (No. 7239260M now JC-797424K),
01 May 2007

Dfr/DSR Ramesh Chand (No. 7239518P now JC-797425M),
01 May 2007

Dfr/DSR Harinder Singh (No. 7239619H now JC-797426P),
01 May 2007

Dfr/DSR Manoj Kumar Chowdhury (No. 7239101P now JC-797427X), 01 May 2007

Dfr/DSR Murari Sharma (No. 7239559Y now JC-797428A),
01 May 2007

Dfr/DSR Dina Nath Pandey (No. 7238934M now JC-797429H), 01 May 2007

Dfr/DSR Balwan Singh (No. 7238859N now JC-797430X),
01 May 2007

Dfr/DSR Baria Tersing Dhanji Bhai (No. 7239460H now JC-797431A), 01 May 2007

Dfr/DSR Amrit Lal Patel (No. 7239527W now JC-797432H),
01 May 2007

Dfr/DSR Ashok Kumar Chaurasia (No. 7239549P now JC-797433L), 01 May 2007

Dfr/DSR Balwan Singh (No. 7239553X now JC-797434N),
01 May 2007

Dfr/DSR Abbasi Jusab Bhai Usman Bhai (No. 7239593X
now JC-797435W), 01 May 2007

Dfr/DSR Netrapal Singh (No. 7239068H now JC-797436Y),
01 Oct 2006

Dfr/DSR Lal Bihari Pal (No. 7239542L now JC-797437F),
01 Oct 2006

Dfr/DSR Vinod Kumar (No. 7239257M now JC-797438K),
01 May 2007

Dfr/RDR Arjun Singh (No. 7239719N now JC-797439M),
01 Jun 2007

Dfr/DSR Rohtas Kumar (No. 7239615M now JC-797440F),
01 Jun 2007

Dfr/DSR Gopal Prasad Gupta (No. 7239620X now JC-797441K), 01 Jun 2007

Dfr/DSR Mukesh Kumar (No. 7239623L now JC-797442M),
01 Jun 2007

Dfr/DSR M Shekar Reddy (No. 7239631K now JC-797443P),
01 Jun 2007

Dfr/Clk Harish Chander (No. 7239943A now JC-797444X),
01 Jul 2007

Dfr/RDR Ray Singh (No. 7239736N now JC-797445A),
01 Jul 2007

Dfr/Clk Manabendu Biswas (No. 7239274M now JC-797446H), 01 Aug 2007

Dfr/Clk Ali Kadir Mandal (No. 7239277A now JC-797447L),
01 Aug 2007

Dfr/Clk Randhir Bahadur Singh (No. 7239279L now JC-797448N), 01 Aug 2007

Dfr/Clk Mohan Das AK (No. 7239289P now JC-797449W),
01 Aug 2007

RDM/FARR Cheni Ram Saikia (No. 7238855X now JC-797450L), 01 Aug 2007

Dfr/DSR Rakesh Kumar (No. 7239637L now JC-797451N),
01 Aug 2007

Dfr/DSR Durga Lal (No. 7239640L now JC-797452W),
01 Aug 2007

Dfr/DSR Khant Babu Bhai Khuma Bhai (No. 7239648X
now JC-797453Y), 01 Aug 2007

Dfr/DSR Rakesh Kumar Sharma (No. 7239675F now JC-797454F), 01 Aug 2007

Dfr/ADT Pramod Parida (No. 7239333N now JC-797455K),
01 Sep 2007

P RAMA SASTRY
Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR
BRANCH

No. 553, Dated 23 Oct 2007.—The President is pleased to
make the following Appointments/Promotions :—

To be Sub Maj Artzn AVN

Sub Indrapal Singh (JC-753729K), 01 Oct 2006/01 Oct 2006*

To be Sub Maj Artzn (EC)

Sub Sudhakaran K (JC-752380L), 01 Oct 2006/01 Oct 2006*

Sub Braham Prakash (JC-751984X), 01 Oct 2006/01 Oct
2006*

Sub Shashi Paul Ranaut (JC-751954A), 29 Sep 2006/01 Sep 2006*

Sub Ramesh Chander (JC-749831P), 02 Nov 2006/01 Nov 2006*

To be Sub Maj Clk (GD)

Sub Asaram Yadav (JC-747895F), 01 Oct 2006/01 Oct 2006*

Sub Tarsem Singh (JC-748131P), 01 Oct 2006/01 Oct 2006*

Sub Amara Ram Sarel (JC-747689X), 26 Sep 2006/01 Sep 2006*

Sub Ram Raj Pandey (JC-747944Y), 01 Oct 2006/01 Oct 2006*

Sub Sarath Kumar PC (JC-747922A), 26 Sep 2006/01 Sep 2006*

Sub Md Aktar Hossain (JC-747924L), 01 Oct 2006/01 Oct 2006*

To be Sub Maj DW

Sub Parmatma Singh (JC-752914L), 27 Jul 2006/01 Jun 2006*

Sub Ram Dinesh Thakur (JC-752811M), 04 Oct 2006/01 Jul 2006*

To be Sub Maj SKT

Sub Dharmpal Singh (JC-749038A), 07 Oct 2006/01 Aug 2006*

Sub Bhagaban Prasad Nayak (JC-748830A), 01 May 2006/01 May 2006*

To be Sub Maj Tech

Sub Sabhajeet Pandey (JC-749732M), 07 Aug 2006/01 Jun 2006*

Sub Amarjeet Singh (JC-749748X), 01 Mar 2006/01 Mar 2006*

Sub Shyampal Singh (JC-749385Y), 13 Apr 2006/01 Mar 2006*

Sub Bhagabati Das (JC-749828P), 01 Oct 2006/01 Oct 2006*

Sub Satish Chanda Srivastava (JC-749809K), 01 Oct 2006/01 Oct 2006*

Sub Sukbir Sharma (JC-749829X), 03 Oct 2006/01 Oct 2006*

Sub K Gnanasekharan (JC-749548F), 01 Aug 2006/01 Aug 2006*

Sub Davinder Kumar Bakshi (JC-749511A), 03 Oct 2006/01 Oct 2006*

Sub Nripen Kumar Biswas (JC-749468K), 01 Mar 2006/01 Mar 2006*

Sub Ram Naresh Singh (JC-750116Y), 25 Jul 2006/01 Jun 2006*

Sub Suresh Kumar Nair PP (JC-749734X), 01 Jun 2006/01 Jun 2006*

Sub D Palani (JC-749967Y), 06 Nov 2006/01 Nov 2006*

To be Sub Maj Tech

Sub Pulak Kumar Mandal (JC-747282F), 01 Jan 2006/01 Jan 2006*

Sub Sajiwan Lal (JC-748400W), 01 Jan 2006/01 Jan 2006*

Sub Md Nasimuddin SK (JC-749737L), 26 Sep 2006/01 Sep 2006*

Sub Satyvir Singh (JC-749509H), 03 Oct 2006/01 Oct 2006*

Sub Daya Ram (JC-750826W), 16 Oct 2006/01 Oct 2006*

Sub Shashi Dharan G (JC-749545N), 03 Oct 2006/01 Oct 2006*

Sub John MG (JC-749358P), 02 Feb 2006/01 Feb 2006*

To be Sub Maj Tech AVN

Sub Vijay Kumar Singh (JC-753722A), 01 Oct 2006/01 Oct 2006*

*(Gtd ante dated seniority)

ARMY ORDANCE CORPS

To be Nb Sub

Hav/SKT MT Chandan Singh Negi (No. 6921784F now JC-727527L), 01 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT MT Murali PS (No. 6921757X now JC-727528N), 17 Jul 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/AT Koli Satyappa Dundappa (No. 6924634W now JC-727529W), 01 Aug 2007

Hav/AT S Devendiran (No. 6925185Y now JC-727530L), 01 Aug 2007

Hav/AT Baskar P (No. 6929812X now JC-727531N), 01 Aug 2007

Hav/Clk GD SC Pathak (No. 6919860K now JC-727532W), 01 Jul 2007

Hav/Clk S Prov KR Prasad (No. 6919863X now JC-727533Y), 07 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Prov Mirge Mahadeo Tukaram (No. 6919948N now JC-727534F), 03 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk S Cont Om Prakash (No. 6919862P now JC-727535K), 10 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk GD Sanjay Ukil (No. 6919849L now JC-727536M), 01 Jul 2007

Hav/Clk GD Harish Chandra (No. 6919961X now JC-727537P), 01 Aug 2007

Hav/Clk GD Subhash Chandra Mondal (No. 6919984Y now JC-727538X), 01 Aug 2007

Hav/Clk GD Krishna Singh Kankha (No. 6919988P now JC-727539A), 11 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk GD Ram Avtar Sharma (No. 6919998Y now JC-727540P), 24 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk GD Jagdish Singh Kushwah (No. 6920044A now JC-727541X), 01 Aug 2007

Hav/Clk GD Devendra Mishra (No. 6920137P now JC-727542A), 01 Aug 2007*

Hav/Clk GD Kamal Kishore Singh (No. 6920138X now JC-727543H), 01 Aug 2007

Hav/Clk S Cont N Jadumani Singh (No. 6920192L now JC-727544L), 01 Aug 2007

Hav/Clk S Cont Gelian Thang (No. 6920193N now JC-727545N), 01 Aug 2007

Hav/SKT MT Moni Mohan Chakraborty (No. 6921812H now JC-727546W), 01 Aug 2007

Hav/SKT Amn Nirmal Kumar Choudhary (No. 6921819M now JC-727547Y), 07 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SKT Amn Dinesh Kumar Singh (No. 6921821K now JC-727548F), 01 Aug 2007

Hav/SKT Amn Krishna Kumar Singh (No. 6921822M now JC-727549K), 01 Aug 2007

Hav/SH GD Subhash Kolaji Goud (No. 6918837K now JC-727550Y), 01 Aug 2007

Hav/SH GD Kishan Kumar (No. 6919064F now JC-727551F), 01 Aug 2007

Hav/SH GD Baboo Ram (No. 6920183K now JC-727552K), 03 Aug 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2007 without effect on pay and allowances)

Hav/SH GD Kumar Shivaji T Rao (No. 6920203M now JC-727553M), 01 Aug 2007

Hav/SH GD Biswajit Adhikari (No. 6920460K now JC-727554P), 01 Aug 2007

Hav/SKT GS&C Hare Krishna Ghosh (No. 6920891W now JC-727555X), 05 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

N.K. KASHMIRA
Under Secretary

No. 554, dated 25 October 2007—The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78, as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

Col To be Surg CMDE

S Karkun (DR-10309K), (79069A), 02 Jun 2007 with notional seniority from 21 Jul 2006 without effect on Pay & allowances.

D K TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 555, dated 25 October 2007.—The President is pleased to promote the following officers from existing grade w.e.f. 01 Sep 2007 (F/N) as mentioned against each :—

Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
Shri/Smt.				
MD Upadhyay	HQ-DOA	To 'B'	To 'C'	Rs. 10,000-325-15,200
Nirmal Kumari	HQ-CAS	To 'B'	To 'C'	Rs. 10,000-325-15,200
T Sekhar	HQ-DOA	To 'C'	To 'D'	Rs. 12,000-375-16,500
MC Sharma	HQ-DIC	To 'A'	To 'B'	Rs. 8,000-275-13,500
P K Dabral	HQ-DBFA	To 'C'	To 'D'	Rs. 12,000-375-16,500
Madan Lal	HQ-DBFA	To 'B'	To 'C'	Rs. 10,000-325-15,200
Promila Chawla	HQ-DMISS	To 'A'	To 'B'	Rs. 8,000-275-13,500
Diba Saggarr	HQ-CTEC	To 'B'	To 'C'	Rs. 10,000-325-15,200

BB SHARMA
Jt. Director (Pers-I)

AIR FORCE

No. 556, dated 25 October 2007.—President is pleased to make the following Substantive Promotion:—

INDIAN AIR FORCE

SQN LDR To be Substantive WG CDR

AE (M) Branch

Y Raut (22888), RS Jayanti (22889), w.e.f. 19 Feb 2007

AE (L) Branch

RD Sharma (22890), AS Mukherjee (22891), JS Malik (22892), w.e.f. 19 Feb 2007

Substantive FLT Lt to be Substantive SQN LDR

ADM Branch

DK Gaur (26382), w.e.f. 06 Jan 2007

ADM Branch

WI Singh (26345), Rodgers RM (26346), Gurpreet S Cheema (26347), Manish Kumar (26348), Yogesh Mohla (26349), Anand Kant (26350), Anurag Sharma (26351), MS Ashok Kumar (26352), Sunil Sharma (26353), GP Radhakrishnan (26354), Kunal Khanna (26355), MV Rama Murthy (26356), T. S. Narayanaswamy (26357), w.e.f. 16 Dec 2006

LGS Branch

S Gangopadhyay (26358), P.K. Srivastava (26359), MS Mannas (26360), S P Singh (26361), Santosh Kumar M Nair (26362), Koushik Mukherjee (26363), w.e.f. 16 Dec 2006

Substantive Flt Lt to be Substantive SQN LDR

ACCTS Branch

Lokesh Dutta (26164), w.e.f. 17 Jun 2006

SQN LDR to be Substantive WG CDR

F (P) Branch

Bhullar GS (22901), Viridi MS (22904), Ajay Bhardwaj (22905), Bhadauria UKS (22906), Vijay Yadav (22909), Sanjeev Rangpal (22910), w.e.f. 05 Mar 2007

B Kanungo (22340), w.e.f. 20 Feb 2006

SQN LDR to be Substantive WG CDR

F (N) Branch

Manoj Kumar RS (22747), Nikam SKR (22748), S Sharma (22750), Vaisnavi S (22751), Jha SK (22752), Ahluwalia A (22753), Tyagi R (22754), Mandody J (22755), Varma CB (22756), D' Souza NS (22757), Wyas AA (22758), Saxena T (22759), Rajguru S (22760), w.e.f. 18 Dec 2006

LGS Branch

Khurana D (22749), w.e.f. 18 Dec 2006

SQN LDR To be Substantive WG CDR

F (P) Branch

Sangar S (22676), Aneja Sharad (22677), CJ Singh (22680), Sharma A (22682), Sahu TR (22683), Kumar N (22685), A Goyal (22686), Callaghan A (22687), John Cruz Raju (22688), Dhakate S (22690), Sakthivel S (22691), Nangia Rajat (22692), Atwal SS (22693), Jpshi R (22694), Satya Prakesh Srivastava (22695), Tokkar A (22696), Gautam M (22697), Baliyan S (22699), Johar

G (22700), Jasbir Singh (22702), Sehrawat RK (22703), Chaudhry Rajbir Singh (22704), Rajiv Garg (22705), Verma AW (22706), Singh AV (22707), Ravinder Mann (22708), Sharad Pasricha (22709), Sanamatum Thokcham (22710), Tiwari AM (22712), Lokendro N (22714), Parijat Kashyap (22716), Agrawal R (22717), Dhar N (22718), Sanjiv Kumar Gupta (22719), Vikas Bali (22720), Rajkumar Kesarkar (22722), Biswas SN (22723), S Sondhi (22724), Mahajan M (22725), Dikshit P (22726), Himanshu Goswami (22728), Tripathi SK (22729), Jasween Singh Chatrath (22731), Srihari VS (22732), Ghatti Girish Shivaputra (22733), Vinod V (22734), Setlem Vijaykumar (22735), Nitin Shankar (22736), Sunil Kumar K (22737), Badoni VD (22738), Sinha V (22740), Rauthan RR (22743), Sharma SK (22745), James J (22746), w.e.f. 18 Dec 2006

Naveen Singhal (22530), Bhardwaj L (22561), Saibal Roy (22564), w.e.f. 21 Jun 2006

MS Sridhar (22131), SS Sengar (22151), MV Patel (22152), A Kumar (22160), AS Ahluwalia (22166), w.e.f. 19 Dec 2005

Substantive Flt Lt to be Substantive SQN LDR

Sukhwant Singh (26386), Uma Kant Sharma (26387), Mangal Singh Panwar (26388), w.e.f. 20 Jan 2007

EDN Branch

Sunil Kumar (26389), w.e.f. 20 Jan 2007

Substantive Flt Lt to be Substantive SQN LDR

AE (M) Branch

Gurbir Kang (26800), Prashant Pathak (26801), Dinesh Pant (26803), Praveen Kumar Jha (26804), U Jagadeesh (26805), R Srinivas Gorthi (26806), R Prabhad (26807), D Raghavendra Kumar (26808), HL Gowtham (26809), B Janarthan (26810), Karry Lokesh Rao (26811), Vineet Chauhan (26812), Ajay Gandhi (26814), E Shanmuga Sundar (26815), Saurabh Sharma (26816), Saurabh Joshi (26817), Suneel S Huddar (26818), TK Shanavas Babu (26819), Satinder Singh Dhankar (26820), Dinesh Kumar (26821), Sorbjit Singh Mahajan (26822), MP Sasi Kumar (26823), Vijay Kumar (26824), Rakesh Kumar Singh (26825), BM Shambhu (26826), Vikas Saini (26827), Rajnish Kumar Singh (26828), Nitin Kumar Agrawal (26829), R Naveen Prasad (26830), Ranjan Arora (26831), Gade Kapil S (26832), G Rajeev Kumar (26833), KG S Swamy (26834), Deepesh Jain (26836), Rhonston Soans (26837), SN Sanjeev (26876), w.e.f. 06 Jan 2007

AE (L) Branch

Ganesh Bellikar (26839), Nishant Kulshrestha (26841), Mahesh Pratap (26842), Abhinav (26844), Mukesh Kumar Singh (26845), Raichur N Koushik (26846), Moazzam Siddiqui (26847), Digbijoy Patnaik (26848), Gaurav Manglic (26849), Raman Jit Singh Pahwa (26850), Srinivasamurthy Kumar (26851), N Ramakrishnan (26852), Rohin Sharma (26853), PS Karthik (26854), Rajneesh Saxena (26855), Praveen Kumar Teotia (26856), Sandeepan Sinha (26857), Rohit Pajhal (26858), NS Bharath Kumar (26859), Sanjeev Kumar Khare (26861), Mayank Verma (26864), Ajit Ambrale (26865), Bharath Mohan (26866), Afzal Siddiqui (26868), Ajay Singh (26869), Niraj Avinash Musalay (26871), Ashish Rastogi (26872), Lovleen Singh Dharni (26873), Vijay Verma (26874), Rajiv

Gangadharan (26875), Vikram Singh (262877), Madhra RK (27297), w.e.f. 06 Jan 2007

Substantive Flt Lt to be Substantive SQN LDR

AE (M) Branch

D Mishra (26643), w.e.f. 06 Jan 2007

SQN LDR to be Substantive WG CDR

F(P) Branch

Ramanababu A (22664), Srivastava PK (22666), Gandhi R (22670), Sharma R (22672), w.e.f. 11 Sep 2006

ADM Branch

Ankur Mudgal (22601), Tiwari R (22604), Aldrin HJ (22606), AK Shukul (22607), Chug HK (22608), Rajeev Ranjan (22609), Prasad P (22612), Didwania Satish Kumar (22613), Sharma KK (22615), w.e.f. 26 Mar 2007

Prusty DK (22912), Sunil Kumar Chauhan (22913), Vineet Hemraj (22914), w.e.f. 17 Mar 2007

ADM Branch

Singh Suresh (22761), George JM (22762), Harshvardhan Sharma (22763), Surya Bhan Singh (22764), S Joshi (22767), Anand N (22769), Puneet Wanchu (22770), Pandey SK (22771), Paranjpe M (22772), Das MR (22773), Hegde SG (22774), Vikas Wahi (22775), Tiwari AK (22776), Pant D (22778), K Rakesh Kumar (22779), Reddy TS (22780), T Selwyn (22781), Bobby Mayandi Thaver (22782), w.e.f. 18 Dec 2006

LGS Branch

Iyer RR (22783), Khan G (22784), Satish N (22785), Singh SK (22786), Gayan AK (22787), Vikram Bakshi (22788), Ravinder Kumar (22789), Joemon Phillipose (22790), PK Singh (22791), Rajwar CS (22792), Taneja LK (22794), Vidyadhara Prasad N (22795), Anand Surtibhavi (22796), w.e.f. 18 Dec 2006

ACCTS Branch

Sohil Irfan (22824), w.e.f. 17 Jan 2007

ACCTS Branch

Arora PK (22797), Gupta PK (22798), Kukreti S (22799), Gupta R (22800), Datta V (22801), Kamal Kant Hira (22802), Selva Kumar S (22803), Bhanu Prakash TJ (22804), Roshan KJ (22805), w.e.f. 18 Dec 2006

ADM Branch

Mahto S (22638), w.e.f. 21 Jun 2006

MET Branch

KP Harishkumar (22004), w.e.f. 21 Jun 2006

SQN LDR to be Substantive WG CDR

LGS Branch

AVG Patnaik (22245), S Raj (22247), w.e.f. 19 Dec 2005

AE (L) Branch

S Ramachandran (23090), w.e.f. 29 May 2006

AE (M) Branch

Ramesh Babu K (22836), w.e.f. 28 Nov 2005

AE (L) Branch

Srinivas P (22844), VK Dass (22855), w.e.f. 28 Nov 2005

Substantive Flt Lt to be Substantive SQN LDR

F (P) Branch

Mohit Kumar Srivastava (26277), Deepankar Nautiyal (26278), Debraj Sanyal (26279), Parijat Saurabh (26280), Katta Praveen Kumar (26281), S.Sure (26282), Abhijit Sarin (26284), Sadaf Waqar Alam (26285), Akash Gupta (26286), Kinshuk Agarwal (26287), Manish Johar (26288), Samit Gupta (26289), Gaurav Semwal (26290), Abhishek Sharma (26291), Sunil Agnihotri (26292), Praveen Tiwari (26293), Nitin Chadha (26294), Amneet Singh Sachdeva (26295), Charles Shorabh Simon (26296), B Siddartha Srinivas (26298), Vishwas Jamkar (26299), Ravinder Ahlawat (26300), Abhai Pratap Singh (26301), Pankaj Kandpal (26302), Rajan Bhatla (26303), Sreejith Balagopal (26306), Rajnish Gopinathan (26307), Kamran Nazeer (26308), S Akheto Jakhalu (26309), V Vamardevan Santosh (26310), Konark Goel (26311), Sushant Mitra (26313), Laxman Singh Charan (26314), Mudit Chaurasia (26316), Saket Verma (26317), Ritesh Khandelwal (26319), Vipin Vilas Takawale (26320), Balraj Singh Bajwa (26321), Baldev Singh Bisht (26322), Rahul Tyagi (26323), KC Naithani (26324), Anupam Dey (26325), Ashwin Sikka (26326), Manish Negi (26329), Deepak Hooda (26330), Praveen Kaveriappa (26332), B Venugopal (26315), w.e.f. 16 Dec 2006

LGS Branch

Arvind Kumar Sharma (26327), w.e.f. 16 Dec 2006

Substantive Flt Lt to be Substantive SQN LDR

AE (M) Branch

SS Hiremath (26412), w.e.f. 01 Jul 2006

F (P) Branch

Arnab Nath (25834), A Vijay Kumar (25858), w.e.f. 18 Dec 2005

F(N) Branch

Anand Pandey (26333), Zachariah Thomas (26334), Saurabh Singh (26335), Jairam Raman (26336), Shailendra Ghildiyal (26338), Nitin KP Bhosale (26339), MR Mishra (26341), BK Chakravarthy (26342), Saurav Duttagupta (26343), Ajit Chauhan (26344), Arun Kumar (26337), w.e.f. 16 Dec 2006

LGS Branch

Avijoy Saha (26340), w.e.f. 16 Dec 2006

SQN LDR To be Substantive WG CDR

AE (M) Branch

V Singh (23313), A Srivastava (23314), SR Hazarika (23315), PT Lakshminarasimhaiah (23316), M Patel (23317), KP Vishwas (23318), R Bhatnagar (23319), SA Somasekhar (23320), J Mathew (23321), AK Bansal (23322), M Meagher (23323), AS Kumar (23324), R Verma (23325), A Dogra (23326), A Tyagi (23327), B Balaji (23328), DB Roy (23329), SKVR Potdar (23403), A Srivastava (23404), PK Shukla (23407), w.e.f. 27 Nov 2006

AE (L) Branch

PD Tiwari (23089), JV Gangadhar (23091), S Jaishankar (23330), D Roy (23331), A Kalia (23332), SS Gangakhedkar (23335), V Sanjay (23337), H Upadhyay (23338), SS Kiran (23339), S Soma Sundaram (23340), AK Valluri (23341), A Sharma (23342), AK Gupta (23343), VV Madhukar Rao (23344), S Rajput (23345), BV Prasad (23346), S Kumar

(23348), SKP Hegde (23349), S Bhattacharya (23350), Rathindra KR Kamath (23351), SK Shah (23352), M Srinivas (23353), MP Ponnappa (23354), VK Bajpai (23355), D Kale (23356), SVK Pillai (23357), YPS Chahar (23358), JD Kapoor (23360), N Gupta (23361), N Verma (23362), SC Tripathy (23363), SK Wagle (23364), V Kumar (23365), AK Yachareni (23366), B Devadasu (23367), SK Narayanan (23368), PK Singh (23369), VP Singh (23370), VN Rao (23371), DJ Lawrence (23372), S Thomas (23373), PS Dattatraya (23375), R Shukla (23380), V Mediratta (23381), NS Gulia (23382), S Venkataachalam (23387), M Srivastava (23388), G Chary (23389), SC Viswanath (23402), MM Thirumalaiah (23408), w.e.f. 27 Nov 2006.

SHORT SERVICE COMMISSION

Substantive Flt Lt to be Substantive SQN LDR

ADM Branch

Mrs Vipanjit Sandhu (26365), Ms Sonia Raheja (26366), Ms Chandna J (26367), Ms Manju Pandey (26368), Ms Putta Sudha Rani (26369), Mrs Arundhati Kurtadikar (26370), Mrs Harsha Joshi (26371), Mrs Ritushree (26372), Ms Rajni Kosta (26373), Mrs Pallavi Pandse (26375), w.e.f. 16 Dec 2006

LGS Branch

Ms Rajani Gupta (26377), Mrs Shanta Mishra (26378), Mrs Amrit Kapur Chani (26379), Ms Anjali Dixit (26380), Ms Neena Bhati (26381), w.e.f. 16 Dec 2006

EDN Branch

Mrs Pratibha Bisht (26182), w.e.f. 16 Sep 2006

MET Branch

Ms Neelam Chauhan (25813), w.e.f. 16 Sep 2006

AE (M) Branch

TC Shah (26393), w.e.f. 08 Jan 2007

AE (L) Branch

AS Sachan (26396), w.e.f. 08 Jan 2007

F (P) Branch

Mrs Mona Sirohi (26364), w.e.f. 16 Dec 2006

SQN LDR To be Substantive WG CDR

SHORT SERVICE COMMISSION.

ADM Branch

Mrs Lavanya Bhardwaj (22807), Mrs Hemlata Lohani (22808), w.e.f. 18 Dec 2006

LGS Branch

Mrs Anurba Acharya (22814), Mrs Neelu Khatri (22815), Mrs Rajni Verma (22816), w.e.f. 18 Dec 2006

ACCTS Branch

Mrs. Parul Goyal (22819), w.e.f. 18 Dec 2006

N VIJAY KUMAR
Wing Commander
Joint Director
Personnel Offrs-3(D)

No. 557, dated 24 October 2007.—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

To be Substantive Air CMDE (AE Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

A C (ACTG) P Kanakaraj (15066), AE(M), 14 May 2007

(His Name will Appear Below Air CMDE DK Pande (15081) AE(L) In the Combined Gradation List)

KV SHANKAR

Joint Director of Personnel

Officers-2(B)

No. 558, dated 22 October 2007.—The President is pleased to retire Shri Rajnish Kumar Grover, Deputy Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 30 Sep 2007 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to allow Shri HR Nangia, a Section Officer (ad-hoc) of the CSS in the Ministry of Defence to take voluntary retirement from Government Service w.e.f. 01st October 2007 (FN).

SK DEB

Under Secretary

AIR BRANCH

CORRIGENDUM

No. 559, Date 25 October 2007.—Reference Ministry of Defence Notification Sl No. 8 Entry No. 100 date 07 February 2007 Page No. 390 Published in the Gazette dated February 24, 2007 (Phalguna 05, 1928) under Indian Air Force, ADM Branch.

The following amendments are made :—

INDIAN AIR FORCE

ADM BRANCH

PERMANENT COMMISSION

WG CDR (TS) to be Substantive WG CDR

For

Monaharan (17751), w.e.f. 16 Dec 2004

Read

K Manoharan (17751), w.e.f. 16 Dec 2004

N Vijay Kumar
Wg Cdr
JDPO-3(D)